



NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, PUNE

RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)



COPYRIGHTS

Samarth Vidya Sankul, Vishnupuri,
Talegaon Dabhade, Pune – 410507

02114 – 231666

nmiettalegaon@gmail.com



PCET'S and NMVPM's

Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology

About NMVPM

Nutan Maharashtra Vidya Prasarak Mandal is a highly respected education society in Maharashtra and is credited with starting national education schools in the Maval Region of Pune district over 100 years ago. The great freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was the founder member of the Mandal and was the Chairman of its Governing Body for almost 12 years. The late Hon. Vishnu G. Vijapurkar was the first Secretary of “Samarth Vidyalaya” – the first national school started by the Mandal. He was imprisoned by the British authorities for his so called anti British activities. Vishnu Ganesh Pingle was a Vibrant Student of Samarth Vidyalaya. He became a leader of the Gaddar Party of Lala Hardayal and was hanged by the British for his revolutionary activities when he was barely 26. The Mandal and its schools has such rich heritage.

During the first 80 years, the Mandal established good Primary and Secondary Schools in the Maval region with the sole intention of providing education to the youth of relatively backward area of the Pune District. In 1998, it established a Polytechnic College and during the last decade, over 1000 students received quality technical education in the Maval region. The Society (Mandal) has thus helped the nearby community in raising its economic and education standard. The progressive, dynamic and dedicated management of the Nutan Maharashtra Vidya Prasarak Mandal has decided to start a four year degree engineering college from academic year 2008-2009.

About NMIET

NMIET (Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology) was founded in 2008. NMIET stands committed to provide quality technical education to its students.”Nutan Maharashtra Institute of Engineering & Technology (NMIET)” is approved by All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi and Director of Technical Education (DTE), Government of Maharashtra. It is affiliated to Pune University. It is a part of Pune's Savitribai Phule Pune University (SPPU). There are four undergraduate courses offered by the institute. Computer Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering, Electronics, and Telecommunication Engineering are some of the undergraduate courses available.

Vision of Institute

To be a notable institution for providing quality technical education and ensuring ethical, moral and holistic development of students.

Mission of Institute

To nurture engineering graduates with state of the art competence, professionalism and problem solving skills to serve needs of industry as well as society.

Vision Research and Development

To be recognized as a creative and innovative department.

Mission Research and Development

Strengthening research culture thorough quality research publications and IPR on latest technology.

Objectives Research and Development

- To promote research in newly emerging and challenging frontier areas of Engineering & Technology.
- To encourages the students and faculties to undertake the research in emerging areas including multidisciplinary fields.
- To create awareness and improve number of Patents & IPR.
- To enhance the research output of the institute by publishing research paper in referred journals and reputed conferences.
- To organize various workshops/ seminar/ trainings related to promotion of research.

About the Research and Development Department

The Research and Development (R&D) Department at Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology (NMIET) stands as a proud emblem of innovation and technological progress within the institution. At the core of NMIET's commitment to expanding the horizons of knowledge and fostering a culture of creativity, the R&D Department serves as a linchpin, propelling academic excellence and making substantial contributions to the broader scientific and engineering realm.

The R&D Department at NMIET boasts cutting-edge facilities and is staffed by an energetic cadre of researchers, scholars, and seasoned faculty members. Its central mission is to cultivate a research environment that nurtures curiosity, exploration, and collaborative learning. Through the pursuit of pioneering research, the department endeavors to address real-world challenges, effectively bridging the gap between theoretical insights and practical applications.

In its relentless quest for distinction, the R&D Department concentrates on a multitude of interdisciplinary research domains spanning engineering, technology, and the allied sciences. This expansive scope ensures that the outcomes of their research endeavors possess extensive implications and offer potential contributions to diverse industries and societal concerns.

Moreover, the R&D Department is a strong advocate for the active engagement of both faculty and students in research undertakings. It opens avenues for students to participate in hands-on research projects, thereby fostering a culture of innovation from the undergraduate level onwards. This approach not only hones the technical acumen of students but also instills a problem-solving mentality that transcends the boundaries of traditional classroom learning.

Collaboration stands as a cornerstone of the R&D Department's ethos. It actively seeks partnerships with industries, research institutions, and fellow academic entities to facilitate the exchange of knowledge and amplify its impact. By forging robust alliances, NMIET's R&D Department harnesses external expertise and resources, thereby enriching the quality and breadth of its research pursuits.

In summation, the Research and Development Department at Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology stands as a symbol of intellectual inquisitiveness, innovation, and transformative research. With its emphasis on groundbreaking projects, student involvement, and collaborative initiatives, the department continues to make an enduring impression on the academic and technological landscape, making substantial contributions to the advancement of both society and industry.

From the President's Desk:



Dear Esteemed Members of the NMVPM Family,

I am delighted to address you through the pages of Research & Development, the remarkable Research and Development magazine of the Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology (NMIET) Talegaon. This publication stands as a testament to our unwavering commitment to advancing the frontiers of knowledge, innovation, and research.

In today's fast-paced world, the pursuit of knowledge and innovation is more critical than ever before. Research and Development (R&D) not only drive technological advancements but also serve as the bedrock of progress in society. Research & Development, our R&D magazine, exemplifies our dedication to fostering a culture of inquiry, discovery, and collaboration within NMIET.

Within these pages, you will find a compendium of valuable insights, groundbreaking discoveries, and the impressive achievements of our students, faculty members, and researchers. This magazine encapsulates the essence of NMIET's research ecosystem and underscores our commitment to pushing the boundaries of engineering and technology.

Our researchers have been working diligently on projects that have the potential to shape industries, enhance human lives, and address pressing global challenges. From the seeds of innovation to the fruition of transformative ideas, each article in Research & Development reflects the diligence, expertise, and passion of the NMIET community.

I extend my heartfelt appreciation to our faculty members, students, and researchers who have contributed their time, energy, and expertise to this publication. Your dedication to advancing knowledge and pioneering solutions is commendable, and it is your collective efforts that elevate NMIET to be a renowned hub of academic excellence.

Thank you for your steadfast support of NMIET's mission to nurture intellectual growth, facilitate research excellence, and prepare the leaders of tomorrow. Together, we shall continue to achieve new heights and make a meaningful impact on the world through our collective dedication to education, research, and development.

Warm regards,

Hon. Shri. Sanjay (Bala) Vishwanath Bhegade
Ex Minister (Maharashtra Govt.),
President, Nutan Maharashtra Vidya Prasarak Mandal (NMVPM).

From the Director's Desk:



Dear Esteemed Members of the NMIET Family,

It is with great enthusiasm and pride that I address you through the pages of Research & Development, our cherished Research and Development magazine. As the Director of Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology (NMIET), it is my privilege to introduce this platform that encapsulates the spirit of inquiry and innovation that defines our institution.

R&D stands as a beacon of inspiration, representing the collective dedication and unwavering commitment of our faculty, students, and researchers to the pursuit of knowledge and excellence. In today's fast-paced world, the importance of research and development cannot be overstated, and this magazine is a testament to our institution's leadership in this arena.

Within these pages, you will discover a treasure trove of ideas, discoveries, and projects that epitomize NMIET's commitment to pushing the boundaries of knowledge in the fields of engineering and technology. From pioneering innovations to transformative solutions for real-world challenges, each article in Research & Development reflects the passion, expertise, and dedication of our NMIET community.

At NMIET, we understand that our journey doesn't end with the publication of Research & Development—it is an ongoing endeavor to nurture intellectual growth, foster innovation, and prepare our students to become leaders in their respective fields. I have no doubt that our institution will continue to scale new heights in research and development, further cementing our reputation as a center of academic excellence.

I extend my sincere appreciation to the entire NMIET community for your unwavering support and dedication to our institution's mission. Together, we will continue to make meaningful contributions to the world through education, research, and innovation.

Thank you for being a part of our journey. Let us embrace the boundless opportunities that research and development present, for it is through our collective efforts that we will create a brighter and more promising future.

Warm regards,

Dr. Girish Desai, Director,

Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology

From the Principal's Desk:



Dear Students, Faculty, and Researchers,

It gives me immense pleasure to extend my warm greetings to all of you through the pages of Research & Development, our esteemed Research and Development magazine. As the Principal of Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology (NMIET), it fills me with pride to introduce this platform dedicated to showcasing the intellectual prowess and innovation that define our institution.

Research & Development is a testament to our relentless pursuit of knowledge and our unwavering commitment to research and development. It stands as a beacon of inspiration for the entire NMIET family, serving as a testament to our collective dedication to excellence.

In today's rapidly evolving world, research and development are the driving forces behind progress and innovation. They are the engines that power advancements in engineering and technology, shaping the future of industries and societies alike. Through Research & Development, we have the opportunity to celebrate and share the outstanding contributions of our faculty, students, and researchers in this dynamic field.

In the pages of this magazine, you will discover a treasure trove of insights, discoveries, and projects that underscore our institution's commitment to pushing the boundaries of knowledge. From groundbreaking technologies to innovative solutions for real-world challenges, each article in Research & Development reflects the dedication, passion, and expertise of our NMIET community.

I would like to express my deep appreciation to our talented faculty members, diligent students, and passionate researchers who have contributed to Research & Development's success. Your hard work and commitment to advancing research in diverse areas of engineering and technology are truly commendable, and they play a pivotal role in shaping our institution's identity.

I am confident that NMIET will continue to scale new heights in the realm of research and development. Through our unwavering dedication to education and innovation, we have the power to shape a brighter future for ourselves and for the world at large.

Dr. Vilas Deotare,

Principal, NMIET

From the R&D Dean's Desk:



Dear Colleagues, Researchers, and Innovators,

I am thrilled to address you through the pages of Research & Development, our cherished Research and Development magazine. As the R&D Coordinator of Nutan Maharashtra Institute of Engineering and Technology (NMIET), I am honored to introduce this platform that serves as a testament to our institution's dedication to research, innovation, and academic excellence.

Research & Development embodies the spirit of curiosity and discovery that drives our institution's research endeavors. In today's rapidly evolving world, research and development are at the forefront of technological advancements and societal progress. This magazine is a celebration of our collective commitment to pushing the boundaries of knowledge.

Within the pages of Research & Development, you will find a wealth of insights, discoveries, and projects that exemplify NMIET's commitment to excellence in engineering and technology. From groundbreaking research to innovative solutions addressing real-world challenges, each article in Research & Development reflects the passion, expertise, and dedication of our NMIET community.

I want to extend my heartfelt gratitude to our dedicated R&D Coordinators, esteemed faculty members, dedicated students, and passionate researchers who have contributed to the success of Research & Development. Your tireless efforts in advancing the frontiers of knowledge are truly commendable and are the driving force behind our institution's continued growth and impact.

I extend my sincere appreciation to the entire NMIET community for your dedication and support. Together, we will continue to make meaningful contributions to the world through education, research, and innovation. Let Research & Development serve as a testament to our commitment to excellence and our unwavering pursuit of knowledge.

Thank you for your invaluable contributions to our research and development endeavors. Together, we will continue to explore new horizons and pave the way for a brighter and more innovative future.

Warm regards,

Prof. Pritam Ahire

R&D Dean, NMIET.

Sr. No.	Diary Number	Title of work	Year of Filing
1	8552/2024-CO/L	ADAPTIVE METHODOLOGY FOR SINGLE SENTENCE WORD SENSE DISAMBIGUATION	2024
2	8554/2024-CO/L	LITERARY/ DRAMATIC WORK PROPOSED ADAPTIVE LEXICAL RESOURCES FOR THE PROCESS F WORD SENSE DISAMBIGUATION	2024
3	8565/2024-CO/L	METHODOLOGY FOR WORD EMBEDDING	2024
4	8552/2024-CO/L	ADAPTIVE METHODOLOGY FOR SINGLE SENTENCE WORD SENSE DISAMBIGUATION	2024
5	8561/2024-CO/L	COMPLEX NETWORK APPROACH FOR WORD SENSE DISAMBIGUATION	2024
6	26126/2024-CO/L	Adaptive YouTube Video Recommendation System Based on User Preparation Level	2024
7	26125/2024-CO/L	AUTOMATIC DETECTION OF CRATERS & BOULDERS FROM ORBITER HIGH RESOLUTION CAMERA(OHRC) IMAGES USING AI/ML TECHNIQUES	2024
8	26124/2024-CO/L	AI & IoT based credit & debit card fraud detection using Machine Learning Algorithm	2024
9	26123/2024-CO/L	AI and IOT enabled attendance & engagement monitoring system	2024
10	26122/2024-CO/L	AI based approach for detecting, quantifying & visualizing the evolution of research using Machine learning algorithms	2024
11	26121/2024-CO/L	AI based Automatic Healthcare Management system for early detection and monitoring of cardiovascular diseases using a wearable IOT devices and deep learning models	2024
12	26120/2024-CO/L	AI-based system that predicts solar power generation using machine learning models	2024
13	26119/2024-CO/L	AUGMENTED REALITY IN EDUCATION SYSTEM	2024
14	26118/2024-CO/L	Automatic health monitoring system in car using in build IoT sensor in car steering	2024
15	26117/2024-CO/L	Auto-Shield	2024
16	26116/2024-CO/L	Cash Withdrawal Using Mobile Phone	2024
17	26115/2024-CO/L	Centralize E-Study	2024
18	26114/2024-CO/L	CGPA to Percentage Converter	2024
19	26113/2024-CO/L	Comparative Analysis Between ANN & NB Algorithm for Heart Attack Prediction	2024
20	25285/2024-CO/L	Expiry-Indicator	2024
21	25284/2024-CO/L	Food Rescue and Donation App	2024
22	25255/2024-CO/L	Intelligent Event based network monitoring systems to reduce false Positive Errors using genetic optimization	2024
23	26127/2024-CO/L	IoT Device for Transparent Blockchain Communication	2024

24	25308/2024-CO/L	IR BASED STUDENT COUNTING IOT SYSTEM	2024
25	25242/2024-CO/L	Local Service Finder App	2024
26	25239/2024-CO/L	Mall Maps	2024
27	25240/2024-CO/L	Manchester Encoding Simulator	2024
28	25238/2024-CO/L	Online Courses comparison module	2024
29	25256/2024-CO/L	Optigo	2024
30	25257/2024-CO/L	Prediction of Brain Tumor Using Monte Carlo Algorithm in AI	2024
31	25258/2024-CO/L	QR based train pass system	2024
32	25273/2024-CO/L	Secured Document Storage and Transfer System using Blockchain technology	2024
33	25275/2024-CO/L	Sky Palette	2024
34	25259/2024-CO/L	Smart Token based doctor appointments of toddlers at Paediatricians	2024
35	25272/2024-CO/L	SmartClean : Real-Time Solar Panel Cleaning Optimization Using ML, Data Science, and Cloud	2024
36	25260/2024-CO/L	Socket Games – A terminal based multiplayer game	2024
37	25261/2024-CO/L	PARK WITH EASE	2024
38	25271/2024-CO/L	WAVEWATCH	2024
39	25316/2024-CO/L	SPY CAR using ESP32-CAM Module	2024
40	25295/2024-CO/L	Multitasking - Mobility Vehicle	2024
41	25317/2024-CO/L	Braille Tag with Audiolised System	2024
42	25297/2024-CO/L	PICK AND PLACE ROBOTIC ARM	2024
43	25415/2024-CO/L	Precision Robotic Arm	2024
44	25319/2024-CO/L	Open Theatre Vacant Seat Management System	2024
45	25433/2024-CO/L	THE BRAINY BAG – SMART TRAVEL BUDDY	2024
46	25413/2024-CO/L	Tiffin Box with Fingerprint Lock	2024
47	25309/2024-CO/L	CRYPTOCURRENCY MINING USING RASPBERRY PI	2024
48	25280/2024-CO/L	Systematic Problem Solving method for Orthographics Projections	2024
49	25281/2024-CO/L	Engineering Mechanics: Unveiling the Principles of Forces, Motion, and Energy	2024
50	25267/2024-CO/L	Structural and Morphological Insights into Sn-Doped NiO Thin Films	2024
51	25283/2024-CO/L	Flow chart were beneficial for visuallly Understand the concept of complecated Nodal Analysis process	2024
52	25282/2024-CO/L	The Vital Role of Heat Exchangers in Enhancing Energy Efficiency and Process Control	2024
53	25292/2024-CO/L	Introduction to key Mathematics at a glance to new comer students	2024
54	25290/2024-CO/L	Diverse Approaches to Teaching: A Mind Map	2024
55	25288/2024-CO/L	Pi Clock	2024

56	25287/2024-CO/L	Exploring Superconductivity: From Zero Resistance to Cutting-Edge Applications	2024
57	25252/2024-CO/L	Overview of Importance of Engineering Chemistry in Technical Education	2024
58	25315/2024-CO/L	A Novel Model for Detecting Deforestation Using Pattern Recognition	2024
59	25314/2024-CO/L	An Adaptive Model for Caller Sentiment Analysis	2024
60	25313/2024-CO/L	Adaptive Model for Road Accidents	2024
61	25312/2024-CO/L	Babies Problems Predictions Using Natural Language Processing	2024
62	25311/2024-CO/L	Image Processing Based Rider Sentiment Analysis While Riding	2024
63	25305/2024-CO/L	An Adaptive Model for Plant Leaf Disease Detection and Prediction Using Image Processing	2024
64	25300/2024-CO/L	An Adaptive Model for Student's Mental Health Prediction Using Image Processing	2024
65	25298/2024-CO/L	Mapping of Teaching Pedagogy with Graduate Attributes	2024
66	25304/2024-CO/L	A Novel Approach for Student Attendance Monitoring Using a Machine Learning Approach	2024
67	25296/2024-CO/L	Prediction of Learner Sentiments Using Natural Language Processing	2024
68	25294/2024-CO/L	Role of Natural Language Processing in Education	2024
69	25293/2024-CO/L	Floor Mill Management System	2024
70	25291/2024-CO/L	Detecting Tomato Diseases Using Automation	2024
71	25289/2024-CO/L	An Adaptive Model for Imitation Learning in Robots	2024
72	25286/2024-CO/L	Smart Floor Dust Recognition System	2024
73	25266/2024-CO/L	Voice Based Email for Blind Person	2024
74	25265/2024-CO/L	Distributed Library System Design	2024
75	25332/2024-CO/L	College Feedback System Flowchart	2024
76	25331/2024-CO/L	College Feedback System Report	2024
77	25264/2024-CO/L	Adaptive Methodology for Polysemous Words	2024
78	25335/2024-CO/L	Automobile Power Transmission System	2024
79	25338/2024-CO/L	Design and Manufacturing of Potato Harvester and Planter	2024
80	25339/2024-CO/L	Study of Lower Surface Roughness at Weaker Cutting Edge	2024
81	25340/2024-CO/L	Study of Higher Surface Roughness at Stronger Cutting Edge	2024
82	25341/2024-CO/L	Joules Experiment	2024
83	25342/2024-CO/L	Industry Internship Feedback Form	2024
84	25343/2024-CO/L	Quick Response Codes for Plants	2024
85	25344/2024-CO/L	Lab Manual for Heat Mass Transfer	2024
86	25345/2024-CO/L	360 Wheel Rotation	2024

87	25346/2024-CO/L	Experimental investigation and optimization of process parameters of WEDM using Taguchi method.	2024
88	25347/2024-CO/L	Academic Calendar of NMIET Pune for student's holistic development	2024
89	25348/2024-CO/L	Poster on Career opportunities for mechanical engineering students in different sectors	2024
90	25349/2024-CO/L	Solar energy tracking device and automatic cleaning of solar plate	2024
91	25350/2024-CO/L	Radar system Using Arduino	2024
92	25351/2024-CO/L	Dealing with Rust Issues in Steel Bridges in Coastal Areas	2024
93	25352/2024-CO/L	Design of Hot Oil Detector Model	2024
94	25353/2024-CO/L	Importance of Work and Method Study	2024
95	25412/2024-CO/L	Braille Tag with Audiolised System	2024
96	17857/2023-CO/L	"Online Food Tiffin Delivery Site"	2023
97	17314/2023-CO/L	Book Predictor	2023
98	17310/2023-CO/L	Home Automation System Using IOT	2023
99	17037/2023-CO/L	NMIET Vision Diagram	2023
100	17038/2023-CO/L	Mess Rating Module	2023
101	17042/2023-CO/L	PMPML Bus Tracking System	2023
102	17044/2023-CO/L	Optimized Fastag Scanner	2023
103	17048/2023-CO/L	Personal Finance Manager	2023
104	17050/2023-CO/L	Singing Pitch Analyzer Compare Your Singing to a Professional	2023
105	17052/2023-CO/L	Gym Management System(GMS)	2023
106	17055/2023-CO/L	AI BAsed Defect Analysis System	2023
107	17295/2023-CO/L	AI Based Defect Analysis System	2023
108	17061/2023-CO/L	Transistorized Fire Detector	2023
109	17063/2023-CO/L	SPEEDOMETER LOG	2023
110	17065/2023-CO/L	Emergency Vehicle and Traffic Controlling System	2023
111	17067/2023-CO/L	BLACK BOARD CLEANER/DUSTER	2023
112	17069/2023-CO/L	NMIET E-learning app	2023
113	17071/2023-CO/L	Projector Automation	2023
114	17073/2023-CO/L	Random Password Generator	2023
115	17075/2023-CO/L	Lab equip: laboratory instrument identification system	2023
116	17077/2023-CO/L	Handwritten Digit Recognition System	2023
117	17079/2023-CO/L	WEIGHT SENSING SMART PARKING SYSTEM	2023
118	17080/2023-CO/L	Wi Fi controlled drip irrigation	2023
119	17082/2023-CO/L	VIRTUAL DRESSING MIRROR	2023
120	17085/2023-CO/L	SMART VEHICLE SPACE FINDER	2023
121	17086/2023-CO/L	Pressure Generated Automatic Street Light	2023
122	17088/2023-CO/L	NO PARKING SENSOR	2023
123	17089/2023-CO/L	IoT-Powered Water Management	2023

124	17090/2023-CO/L	Auto cleaning of escalator	2023
125	17091/2023-CO/L	Integrated Fire, Smoke, and Gas Detection System	2023
126	17092/2023-CO/L	Contactless AC voltage Detector	2023
127	17092/2023-CO/L	Contactless AC voltage Detector	2023
128	17277/2023-CO/L	SOLAR HELMET	2023
129	17098/2023-CO/L	Automatic Indicator for Two wheeler	2023
130	17102/2023-CO/L	IOT based water tap sensor	2023
131	17292/2023-CO/L	Safety Earbuds for Driver	2023
132	17106/2023-CO/L	HIGH VISCOSITY FLUID EXTRACTING METHOD	2023
133	17107/2023-CO/L	E-COMMERCE WEBSITE	2023
134	17294/2023-CO/L	Solar Panel Sensor	2023
135	17109/2023-CO/L	AUTOMATIC PLANT IRRIGATION SYSTEM	2023
136	17112/2023-CO/L	Solar Battery Mobile Charger	2023
137	17115/2023-CO/L	RF Remote Control Robot	2023
138	17119/2023-CO/L	Intelligent Road Safety System (IRSS)	2023
139	17058/2023-CO/L	Intelligence Street Light System (Smart Street Light System)	2023
140	17114/2023-CO/L	Intrusion alarm system	2023
141	17841/2023-CO/L	Alum Based Rotary Water Purification	2023
142	17124/2023-CO/L	Vehicle Door Opening Vigilant System	2023
143	17126/2023-CO/L	Solar Powered Umbrella for Workers	2023
144	17127/2023-CO/L	Safety Gadget for Girls Child	2023
145	17128/2023-CO/L	Mouse Chappal	2023
146	17129/2023-CO/L	Global Parking Solution	2023
147	17837/2023-CO/L	Electo-AI	2023
148	17133/2023-CO/L	Auto-Stepper	2023
149	17137/2023-CO/L	Smart Traffic Management System	2023
150	17141/2023-CO/L	Thunder mat	2023
151	17143/2023-CO/L	Daily exercise SIT-UP Counter Monitoring System	2023
152	17147/2023-CO/L	Daily Push Up Counter using Computer vision	2023
153	17150/2023-CO/L	DUMBBELL Counter	2023
154	17152/2023-CO/L	Virtual Try-On: A Revolutionary Way to Shop for Clothes	2023
155	17155/2023-CO/L	LocalCart: E-commerce for Local Markets	2023
156	17159/2023-CO/L	QR med: Medication Safety with QR Codes	2023
157	17162/2023-CO/L	Personal Finance App	2023
158	17164/2023-CO/L	GSM Enabled Power Guardian	2023
159	17170/2023-CO/L	Significance of Fraud Detection in Credit Card Transactions for Financial Security	2023
160	17174/2023-CO/L	Home Robotization System for Blind, Dumb and Deaf Person	2023
161	17180/2023-CO/L	PMPML ONLINE TICKET BOOKING SYSTEM	2023

162	17315/2023-CO/L	Deep Learning Evolving the Dance World with Tensor Holography	2023
163	17302/2023-CO/L	Zero Trust Security Model with ML and AI Incorporated	2023
164	17192/2023-CO/L	Prediction of Chemical Waste from Industry Using AI	2023
165	17194/2023-CO/L	CYCLONE FORECASTING SYSTEM	2023
166	17196/2023-CO/L	Crash detection using IOT and Image Capture	2023
167	17199/2023-CO/L	E- Auction	2023
168	17201/2023-CO/L	Intelligent Traffic Light System	2023
169	17203/2023-CO/L	Homeless to Homelessness Website Platform	2023
170	17205/2023-CO/L	Fuel Quantity Analyzer and Detection of Harmful Content in Fuel	2023
171	17206/2023-CO/L	Multiple Documents under one QR Code	2023
172	17209/2023-CO/L	Smart Parking using QR Code Technology	2023
173	17210/2023-CO/L	Traffic Fine Deduction System using Fast Tag	2023
174	17212/2023-CO/L	Magnetic Resonance Charging for Electric Two Wheelers	2023
175	17214/2023-CO/L	QR Code Base Restaurant Food Ordering System	2023
176	17216/2023-CO/L	Online Doctor Appointment Booking System	2023
177	17217/2023-CO/L	Machine Learning Algorithm for Stress Detection	2023
178	17828/2023-CO/L	Stress Detection using Machine Learning	2023
179	17222/2023-CO/L	A Smarter Eye for Helping Cops (SEHC)	2023
180	17225/2023-CO/L	Identification of Plant Nutrients Deficiency by Neural Networks	2023
181	17227/2023-CO/L	HEALTH-CARD	2023
182	17229/2023-CO/L	Pay from Home for Hospitality using QR	2023
183	17232/2023-CO/L	AUTOMATIC METER READING	2023
184	17233/2023-CO/L	Orbit of Market Boat	2023
185	17236/2023-CO/L	Hostel Security System using Advanced Sensors	2023
186	17239/2023-CO/L	e-Bpass (Online Bus Pass System)	2023
187	17242/2023-CO/L	Best Food Quality Analysis Using Convolutional Neural Network (CNN) Machine Learning Algorithm	2023
188	17244/2023-CO/L	Alcohol Detection System with Vehicle Controlling Using GPS Tracker and GSM Modem	2023
189	17249/2023-CO/L	Social Weather Assistance	2023
190	17251/2023-CO/L	Enhancement of Historical Documents by Image Processing	2023
191	17300/2023-CO/L	Machine Control Using Thoughts of Human Brain	2023
192	17256/2023-CO/L	Bus or Train Location and Seat Tracking (LocTrack)	2023
193	17259/2023-CO/L	Plant Nutrition Detection and Provider	2023
194	17261/2023-CO/L	Emotion Analysis Through Cloud Records	2023
195	17263/2023-CO/L	Auto On-Off Power Supply(Switch) On Charging or On Full Charging of Battery	2023
196	17265/2023-CO/L	Smart Waste Detection Mechanism	2023

197	17267/2023-CO/L	IOT Based Crop Damage Prevention from Wild Animal using IR Camera	2023
198	17269/2023-CO/L	Overloading Bus Detection System	2023
199	17307/2023-CO/L	Voice Controlled IOT Device using Sanskrit as Natural Language Processing (NLP)	2023
200	17280/2023-CO/L	LIBRARY BOOK AVAILABILITY CHECKING SYSTEM USING QR CODE	2023
201	17282/2023-CO/L	In-house Healthcare Monitoring System for Toddlers	2023
202	17289/2023-CO/L	Distance Wireless Charging	2023
203	17287/2023-CO/L	Ticket Booking System using NFC Tags	2023
204	17274/2023-CO/L	Attendance QR Scanner	2023
205	17272/2023-CO/L	E-VENDO	2023
206	17271/2023-CO/L	Identity mail-id in Aadhar	2023
207	17040/2023-CO/L	Puncture detection for two-wheeler electronic vehicle	2023
208	17039/2023-CO/L	Dataset of Real and Fake Job URL	2023
209	17281/2023-CO/L	Urinal Sink	2023
210	17041/2023-CO/L	Black Board Cleaner	2023
211	17043/2023- CO/L	Cycle Mood Matching Your Mood with the Perfect Cycling Route	2023
212	17036/2023-CO/L	Working Instructions of Smart Agriculture using IoT	2023
213	17045/2023-CO/L	Fake Currency Detector Android APP	2023
214	17047/2023-CO/L	AI Surveillance ROBOT	2023
215	17049/2023- CO/L	IOT based Automatic Security Surveillance & Parking Management	2023
216	17051/2023-CO/L	Multitasking Military Spying Robot	2023
217	17053/2023-CO/L	Prediction Estimation of SOC of Lithium-Ion Battery	2023
218	17054/2023-CO/L	Media Transmission using Li-Fi	2023
219	17057/2023-CO/L	Face Liveliness Authentication System	2023
220	17059/2023-CO/L	EV Charging Cost Detection Kit	2023
221	17042/2023-CO/L	Wrong Posture Detector	2023
222	17060/2023- CO/L	Working Instructions for Medicine Pill Dispenser & Surveillance System	2023
223	17062/2023- CO/L	IOT based Patient Health Monitoring System Using Ventilator	2023
224	17064/2023-CO/L	TECH TROLLEY	2023
225	17066/2023- CO/L	DETECTION OF FAKE PROFILES	2023
226	17068/2023- CO/L	MOBILE HOLDER CHARGER	2023
227	17070/2023- CO/L	The most dangerous patch of road	2023
228	17072/2023- CO/L	Stock market analysis by using python code	2023
229	17074/2023- CO/L	product energy from piezoelectric	2023
230	17076/2023- CO/L	A device which detects and removes weeds from farms (which is the major concern for farmers) without using chemicals and thus it keeps environment pollution free	2023


231	17078/2023- CO/L	Design and develop a solar cleaning system to improve efficiency and life span of solar panels	2023
232	17081/2023- CO/L	Making Engineering Graphics More Precise and Increasing Accuracy for arrow head	2023
233	17083/2023- CO/L	Electricity Generation through Magnetic Energy	2023
234	17084/2023- CO/L	The Bot-Information Exchanger	2023
235	17285/2023- CO/L	Line Follower robot	2023
236	17087/2023- CO/L	Street light controller	2023
237	17276/2023- CO/L	Mini Vacuum Cleaner	2023
238	17094/2023- CO/L	Automatic Switch for water pump	2023
239	17095/2023- CO/L	Anti sleep glasses for drivers	2023
240	17096/2023- CO/L	Price Comparison Tool	2023
241	17097/2023- CO/L	Customer Buying Patterns by using Food Product Analyser	2023
242	17099/2023- CO/L	Secure,Tranparent, Decentralized, and Resilient Blockchain-based System for Supply Chain Management	2023
243	17101/2023- CO/L	Product Price Prediction Software for Customers	2023
244	17103/2023- CO/L	Portal for Hiring Students	2023
245	17104/2023- CO/L	Track Record Maintenance of student by using RFID ID Cards	2023
246	17105/2023- CO/L	Lane Assist Sensor for Safe Overtaking in Curvy Mountain Roads	2023
247	17107/2023- CO/L	Smart Traffic Signal Braking System	2023
248	17108/2023- CO/L	An Easy to connect to Labors using APNA Labor App	2023
249	17110/2023- CO/L	EyeOnSite: A Comprehensive Surveillance and Monitoring System for Construction Sites	2023
250	17113/2023- CO/L	Empowering Users with Smart Metering and Data Visualization	2023
251	17120/2023- CO/L	STRESS DETECTION AND ANALYSIS USING MACHINE LEARNING	2023
252	17122/2023- CO/L	PAN CARD FRAUD DETECTION USING MACHINE LEARNING	2023
253	17123/2023- CO/L	Intelligent Navigation Assisted Indicator Activation(eSignalNav)	2023
254	17125/2023-CO/L	Toll Plaza Management	2023
255	17288/2023- CO/L	Easy to travel using Tour with Us Guide App	2023
256	17293/2023- CO/L	Enhancing Bus Service through Passenger Density Monitoring	2023
257	17130/2023- CO/L	Improving Agricultural Efficiency with Real-Time Live Weight Tracking of Multi-axle Vehicles	2023
258	17132/2023-CO/L	Codeens	2023
259	17134/2023- CO/L	Online Payment of Bus Tickets: Enhancing Convenience and Efficiency in Maharashtra's Public Transportation System	2023

260	17138/2023- CO/L	COPYRIGHT PROJECT RECOMMENDATION SYSTEM	2023
261	17140/2023- CO/L	Smart Irrigation System for Farming	2023
262	17142/2023- CO/L	Nocturnal: A Cryptocurrency App for College Students	2023
263	17146/2023- CO/L	Finger Print Lock for Documents	2023
264	17148/2023- CO/L	Automatic Plant Detection and Care Recommendations Using OPENCV and Machine Learning Techniques	2023
265	17297/2023- CO/L	Automated Fan Speed Controller (Based On Surrounding Factors)	2023
266	17151/2023- CO/L	SmartSort: AI based Study Material Image Classifier	2023
267	17154/2023- CO/L	Fitness Assistant	2023
268	17157/2023- CO/L	Vehicle Energy Consumption in Python	2023
269	17278/2023- CO/L	Insights of SVM based Plant Leaf disease detection using ChatGPT	2023
270	17163/2023- CO/L	Arduino based smart system for Detection,prevention and alerting System for accidental disasters occurs occurs during driving vehicles	2023
271	17165/2023- CO/L	Smart Resume Shortlisting and Grading using TF-IDF,Cosine Similarity and KNN	2023
272	17298/2023- CO/L	Personalized E-Healthcare System by Using Artificial Intelligence Based Decision Making System	2023
273	17169/2023-CO/L	YantaRakshak - Adriver drowsiness detection system	2023
274	17171/2023- CO/L	User Interface Similarity & clone detection using clone detection model	2023
275	17173/2023- CO/L	Internet of Things and Big Data Analytics for Smart Healthcare	2023
276	17175/2023- CO/L	Blind Helper an Interactive Mobile Application for Visually impaired people	2023
277	17179/2023- CO/L	Power Sources Made from Paper	2023
278	17181/2023- CO/L	VidhiGuru	2023
279	17183/2023- CO/L	Salesforce Integration with WhatsApp	2023
280	17185/2023- CO/L	IOT and ML based open spit detection system and e-challan	2023
281	17186/2023- CO/L	GPS Based Attendance Monitoring System Using Mobile Application	2023
282	17187/2023- CO/L	CloudSync: Seamless Cloud Migration Services	2023
283	17188/2023- CO/L	VigilanceAlert The Alert Sentinel:Safegaurding Vigilance for Enhanced Security and Awareness	2023
284	17189/2023- CO/L	SpeedSync - The Harmony of Speeds	2023
285	17191/2023- CO/L	Fresh Track	2023
286	17193/2023- CO/L	Avoid Noise Pollution in Restricted Area	2023
287	17195/2023- CO/L	Your Virtual Bookstore(BookWave)	2023
288	17197/2023- CO/L	SafeTap: A Sensor-Based Solution for Preventing Water Mixing in Housing Societies	2023

289	17301/2023- CO/L	Pro-Active Maintain Empowering Businesses with AI-Powered Predictive Maintenance	2023
290	17200/2023- CO/L	LPG Gas indicator and safty device	2023
291	17202/2023- CO/L	Patientcare Pro-Reducing Waitng Times and Improving Hospital Efficiency	2023
292	17204/2023- CO/L	Emergency Alert System with Code Word Recognition and Location Tracking	2023
293	17207/2023- CO/L	A Smart Parking System Approach-Innovative Solutions for Obstructed Parking Paths	2023
294	17211/2023- CO/L	Personalized Medicine-Advancing Healthcare through AI-Enabled Personalized Medicine	2023
295	17213/2023- CO/L	Medication Management System	2023
296	17215/2023- CO/L	Identifying fake products through a barcode-based Block-chain system	2023
297	17218/2023- CO/L	Pet Care App	2023
298	17220/2023- CO/L	Memory Mouse: Easy Data Storage and Transfer	2023
299	17224/2023- CO/L	Polyglot: The Language Translator Tool	2023
300	17226/2023- CO/L	Detection of Fraud Driving licence Using Application	2023
301	17230/2023- CO/L	Student Attendance Alerting System	2023
302	17303/2023- CO/L	The Green Home Advisor: Using Predictive Analytics for Sustainable Savings	2023
303	17238/2023- CO/L	My Personalized Calligraphy Using Deep Learning	2023
304	17240/2023- CO/L	Detection of Fraud Aadhar Card Using Application	2023
305	17243/2023- CO/L	Automatic Vehicle Accident Detection and Messaging	2023
306	17245/2023- CO/L	LOCAL E-CONNECT	2023
307	17250/2023- CO/L	S.A.F.E. (Smart Aid for Emergency): Empowering First Aid Treatment with Image Recognition Technology	2023
308	17305/2023- CO/L	Terms & Condition checking	2023
309	17255/2023- CO/L	Charging Controllable Mobile Charger	2023
310	17257/2023- CO/L	Ring Size Analyzer	2023
311	17258/2023- CO/L	Automating Energy Usage and Security in Large Spaces with Computer Vision and IOT	2023
312	17260/2023- CO/L	Improved User Experience on Social Media with AI-Powered Ad Classification	2023
313	17262/2023- CO/L	Mobile app for finding and booking parking spaces	2023
314	17308/2023- CO/L	SkinCare Product Recommender	2023
315	17270/2023- CO/L	Chemical Identification using QR-Code or Smart Chemistry Lab	2023
316	17273/2023- CO/L	Agri-IoT:Smart Farming for Sustainable Agriculture	2023
317	16518/2023- CO/L	Detection of human behavior based on hand writing using Deep Learning Conolucional Neural Networks Algorithm	2023
318	17117/2023- CO/L	Affordable Secondhand Stationary	2023

319	17116/2023- CO/L	Touch sensitivity monitoring & alarming system to increase daily life productivity	2023
320	6219/2023-CO/L	A powerpoint Presentation on Data Security using Audio Video Steganography	2023
321	6150/2023-CO/L	A smart table in restaurant	2023
322	28909/2023-CO/L	GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM	2023
323	28188/2023-CO/L	Doctor Information Application	2023
324	28186/2023-CO/L	Smart mobile Doorbell	2023
325	21976/2022-CO/L	android based college monitoring system	2022
326	21964/2022-CO/L	Android based college monitoring system	2022
327	21986/2022-CO/L	Battery Overheating Notifier for Electric Vehicles	2022
328	21989/2022-CO/L	Converting text file/pdf/article into Audio (AudioBook)	2022
329	21963/2022-CO/L	Cop-cam for E Challan	2022
330	24633/2022-CO/L	Criminal Investigation by Sketch-Image Recognition using Generative Adversarial Networks(GANs)	2022
331	21994/2022-CO/L	Detection of Parkinson's Disease Using Machine Learning	2022
332	22007/2022-CO/L	Diet Analysis using Machine Learning Algorithm	2022
333	22002/2022-CO/L	Easy Public Transport System	2022
334	21990/2022-CO/L	Emergency Accident Call Management in Metropolitan Areas	2022
335	21977/2022-CO/L	Expense Analyzer	2022
336	24636/2022-CO/L	Finding Owner of Lost Belongings using Personalizes-QR	2022
337	21984/2022-CO/L	FIRE EATER USING DRONE	2022
338	21973/2022-CO/L	FIRST AID	2022
339	24626/2022-CO/L	IOT enabled Smart Healthcare Monitoring System for Soldiers using Predictive & Descriptive Models	2022
340	21965/2022-CO/L	Mobi-debit	2022
341	22004/2022-CO/L	Mouse Controlling with movement of fingers	2022
342	24625/2022-CO/L	Neurosymbol Language Understanding using Aircraft Maintenance Metaverse	2022
343	22006/2022-CO/L	ROAD ANALYSER	2022
344	21978/2022-CO/L	Screen Time Monitoring and Analysing System	2022
345	24631/2022-CO/L	Smart Agirculture System based on GBM & RF Predictive Analysis using Federated Learning Approach	2022
346	24826/2022-CO/L	Smart Bus Agent	2022
347	21967/2022-CO/L	Tracking Bus details using Python	2022
348	21997/2022-CO/L	Unified, Comprehensive, Decentralized and Universalised enterprise resource planning and management system	2022
349	21966/2022-CO/L	Voice Calculator(VoCal) using Python	2022

Year of Filing	Total Copyright filed
2024	95
2023	229
2022	25
Total	349



COPYRIGHTS CERTIFICATES



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
www.ipindia.gov.in



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिनिधिधिकार कार्यालय, भारत सरकार
Copyright Office, Government of India

Date: 15/09/2023

1. पंजीकरण संख्या
Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

3. कृति को प्रतिनिधिधिकार में अंतर का विषय की प्रकृति
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कृति का वर्ग और वर्ण
Class and description of the work

5. कृति का शीर्षक
Title of the work

6. कृति की भाषा
Language of the work

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. कृति में प्रतिनिधिधिकार राखित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं और अनुपस्थित होने या अनुपस्थिति के विरुद्ध के साथ प्रत्येक के अधिकार का विस्तार यदि कोई हो।
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधिधिकार में कृति को सौंपने के लिए अधिकृत हैं।
Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

13. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता राखित मूल कृति का वर्ष। (एक कलात्मक कृति के मामले में कृति पूरी होने का वर्ष या रचना का वर्ष।)
If the work is an 'Artistic work', the location of the original work including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).

L-133133/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

OWNER

LITERARY / DRAMATIC WORK, THE MAIN IDEA BEHIND YOUR PROJECT IS TO CREATE A WEBBASED TOOL THAT USES PREDICTIVE ANALYTICS TO HELP USERS MAKE INFORMED DECISIONS ABOUT HOME ENERGY EFFICIENCY UPGRADES, ULTIMATELY HELPING THEM SAVE

THE GREEN HOME ADVISOR: USING PREDICTIVE ANALYTICS FOR SUSTAINABLE SAVINGS

ENGLISH

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004
INDIAN

N.A.

N.A.

Registrar of Copyrights



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
Geographical Indications



**Extracts from the
Register of
Copyrights**




प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक/Dated: 09/10/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant 3. कृति के प्रतिलिप्यधिकार में अंग्रेजक को हिंद की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work 4. कृति का वर्ग और वर्ण Class and description of the work 5. कृति का शीर्षक Title of the work 6. कृति की भाषा Language of the work 7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease 8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished 9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher 10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers 11. कृति में प्रतिलिप्यधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और अनुबंधों और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	L-134235/2023 DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. HARSHA SARODE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN AKSHADA KALOKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SEJAL MATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN NIKITA DESHMUKH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OWNER LITERARY: DRAMATIC WORK WRONG POSTURE DETECTOR ENGLISH DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. HARSHA SARODE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN AKSHADA KALOKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SEJAL MATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN NIKITA DESHMUKH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. HARSHA SARODE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN AKSHADA KALOKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN
---	---

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारतीय औद्योगिक संपत्ति अधिकार विभाग Intellectual Property Office, Government of India		 Extracts from the Register of Copyrights Copyright Office, Government Of India	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		Registration Number L-132695/2023	
1. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
3. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
4. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		VAISHNAVI SAKPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
5. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		AISHWARYA KARANDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
6. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MANALI SALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
7. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
8. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SUJAL KOLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
9. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		OWNER	
10. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		LITERARY/ DRAMATIC WORK IN THE PAST, COMMUNICATING WITH PEOPLE WHO SPOKE A DIFFERENT LANGUAGE OFTEN REQUIRED THE USE OF CONVENTIONAL TRANSLATION METHODS, SUCH AS HIRING A HUMAN TRANSLATOR OR USING A DICTIONARY. HOWEVER, THESE	
11. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		POLYGLOT: THE LANGUAGE TRANSLATOR TOOL	
12. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		ENGLISH	
13. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
14. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
15. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
16. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		VAISHNAVI SAKPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
17. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		AISHWARYA KARANDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
18. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MANALI SALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
19. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
20. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SUJAL KOLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
21. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		UNPUBLISHED	
22. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
23. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
24. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
25. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
26. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
27. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
28. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
29. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
30. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	


[illegible]

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA BUREAU OF PATENTS TRADE MARKS & DESIGNS GEOMETRIC DESIGN REGISTRATIONS		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक Dated-12/09/2023				
1.	परचलक संख्या/Registration Number	L-132936/2023		
2.	अर्पक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PRATIK SANTOSH GIDDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA SUBHASH DEUSKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM SURYAKANT PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ANURAG SUDHAKAR UPADHYAY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
3.	वृत्ति में प्रतिलिप्यधिकार में अन्तरेण के हित की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4.	वृत्ति का वर्णन एवं वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK A SOFTWARE PROGRAM CALLED THE TERMS AND CONDITIONS TAC CHECKING TOOL IS CREATED TO AUTOMATE THE PROCEDURE OF READING AND EVALUATING LEGAL CONTRACTS INCLUDING TERMS OF SERVICE, PRIVACY POLICIES, AND		
5.	वृत्ति का शीर्षक Title of the work	TERMS & CONDITION CHECKING		
6.	वृत्ति की भाषा Language of the work	ENGLISH		
7.	रचनाकार का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचनाकार की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PRATIK SANTOSH GIDDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA SUBHASH DEUSKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM SURYAKANT PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ANURAG SUDHAKAR UPADHYAY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
8.	वृत्ति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9.	प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	यदि के प्रकाशनों में वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		
11.	वृत्ति में प्रतिलिप्यधिकार राशि विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताओं और अनुबंधों और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक अधिकार का विवरण, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PRATIK SANTOSH GIDDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA SUBHASH DEUSKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM SURYAKANT PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ANURAG SUDHAKAR UPADHYAY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारत सरकार, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भारत सरकार, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय		 Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. NEETA KARHADKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DISHA KARPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN RUCHIKA KALAGATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHMESH NAIK, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		L-134094/2023 DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. NEETA KARHADKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DISHA KARPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN RUCHIKA KALAGATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHMESH NAIK, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
3. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work		OWNER	
4. कृति का वर्णन Title and description of the work		LITERARY/DRAMATIC WORK	
5. कृति का शीर्षक Title of the work		PREDICTION ESTIMATION OF SOC OF LITHIUM-ION BATTERY	
6. कृति की भाषा Language of the work		ENGLISH	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. NEETA KARHADKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DISHA KARPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN RUCHIKA KALAGATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHMESH NAIK, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished		UNPUBLISHED	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		N.A.	
10. बाद में प्रकाशित होने वाले वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों का नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		N.A.	
11. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता और अनुबंधों और अनुमति के विवरण के साथ प्रत्येक अधिकार का विवरण, यदि कोई हो Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. NEETA KARHADKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. BALIKA TAWADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DISHA KARPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN RUCHIKA KALAGATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHMESH NAIK, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	




INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
WORLDWIDE INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



भारत सरकार

Extracts from the
Register of
Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

Copyright Office, Government Of India

दिनांक Dated: 04/10/2023

1. प्रत्येक रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक का वर्णन
Description of the work

4. आवेदक का वर्णन
Class and description of the work

5. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

6. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

7. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

8. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

9. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

10. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

11. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

L-134148/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

MANALI SALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

RUTIKA RAVINDRA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SHARYARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

OWNER

ENGLISH

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

MANALI SALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

RUTIKA RAVINDRA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SHARYARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

MANALI SALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

RUTIKA RAVINDRA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004


INDIAN

SHARYARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004


INDIAN

 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE भारतीय प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय भारतीय प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक: 21-09-2023				
1.	परकीकरण संख्या/Registration Number	L-132928/2023		
2.	अर्हक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR.PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-416007 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA ADITYA DEUSKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN JANHAVI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA PRANAV PATKI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA SHUBHAM PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN		
3.	कृति के अधिकारधारियों में अर्हक को हिस्सा की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4.	कृति का वर्ण और वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK IN TODAY'S FASTPACED AND COMPETITIVE MARKET. CUSTOMERS ARE CONTINUOUSLY SEEKING FOR STRATEGIES TO MAKE EDUCATED PURCHASE DECISIONS. WHETHER YOU WANT TO BUY A MOBILE PHONE, A WASHING MACHINE, A TV, OR PRODUCT PRICE PREDICTION SOFTWARE FOR CUSTOMERS		
5.	कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH		
6.	कृति का नाम Title of the work	MR.PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-416007 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA ADITYA DEUSKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN JANHAVI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA PRANAV PATKI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIA SHUBHAM PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN		
7.	कृति के रचनाकारों का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचनाकारों की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	UNPUBLISHED		
8.	कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	N.A.		
9.	उत्पन्न प्रकाशन का वर्ष और देश तथा उत्पन्नकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	बाद से प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारतीय औद्योगिक संपत्ति अधिकार विभाग		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक Dated: 04-10-2023				
1.	पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-134147/2023		
2.	अप्प्लिकेंट का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. KUNAL SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. VARUN URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. ADITYA THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. OMSINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. SHAM BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
3.	कृति के प्रतिलिप्यधिकार से अपेक्षा की गई सेवाएँ Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK MAINTAINING REGULAR ATTENDANCE IS CRUCIAL FOR STUDENTS ACADEMIC SUCCESS AND OVERALL PERFORMANCE. RECOGNIZING THE IMPORTANCE OF ATTENDANCE, ATTEMPTS TO SOLVE THE PROBLEM OF POOR PUNCTUALITY BY OFFERIN		
4.	कृति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	STUDENT ATTENDANCE ALERTING SYSTEM		
5.	कृति का शीर्षक Title of the work	ENGLISH		
6.	कृति की भाषा Language of the work	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. KUNAL SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. VARUN URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. ADITYA THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. OMSINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. SHAM BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
7.	एवंगीत का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा रचयिता की मृत्यु को यदि है। Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	UNPUBLISHED		
8.	कृति प्रकाशित या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	N.A.		
9.	पत्रा प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशन का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	वर्षों के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, विज्ञान, सूचना एवं सार्वजनिक संबंध विभाग
भारत सरकार, विज्ञान, सूचना एवं सार्वजनिक संबंध विभाग



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

भारत सरकार, विज्ञान, सूचना एवं सार्वजनिक संबंध विभाग

Copyright Office, Government Of India

विज्ञान, सूचना एवं सार्वजनिक संबंध विभाग

1. प्रतिलिप्यधिकार संख्या Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

3. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

4. आवेदक का नाम, पता और वर्ण
Name, address and nationality of the applicant

5. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

6. आवेदक का नाम, पता और वर्ण
Name, address and nationality of the applicant

7. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

8. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

9. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

10. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

11. प्रतिलिप्यधिकार का विवरण
Description of the work

L-132854/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

SHARVARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

MANALI SALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

YESH BELAVALEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

OWNER

MOBILE APP FOR FINDING AND BOOKING PARKING SPACES

ENGLISH

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

SHARVARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

MANALI SALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

YESH BELAVALEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

UNPUBLISHED

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

HARSHAL CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

SHARVARI PISAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

NIKITA ASAWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

MANALI SALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004


YESH BELAVALEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

  		Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India			
L-134163/2023			
1. नवीकरण संख्या/Registration Number	L-134163/2023		
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN RIDDHI BARTHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SAMIKSHA ASODEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN TANVI BABAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SRISHITI BOTHARA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN RITUJA KINE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
3. आवेदक के प्रतिलिप्यधिकार में अवरोध के बिना की संपत्ति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4. कृति का वर्ग और वर्ण Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK PEOPLE TODAY PREFER HANDWRITINGSTYLE PERSONALISED FONTS FOR COMMUNICATION WITH THE AIM OF HAVING A DOCUMENT OR MESSAGE APPAR AS THOUGH IT WERE WRITTEN BY THE PERSON SENDING IT. HANDWRITING SYNTHESIS		
5. कृति का शीर्षक Title of the work	MY PERSONALIZED CALLIGRAPHY USING DEEP LEARNING		
6. कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH		
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN RIDDHI BARTHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SAMIKSHA ASODEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN TANVI BABAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SRISHITI BOTHARA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN RITUJA KINE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		


[illegible]



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
WIPRO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)
WIPRO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)



**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

Copyright Office, Government Of India

Copyright Office, Government Of India

1. आवेदन संख्या Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक का पता, पता और वर्ग Class and description of the work

4. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

5. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

6. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

7. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

8. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

9. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

10. आवेदक का नाम और वर्ग Class and description of the work

L-132800/2023

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

VARUN VILAS URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

KUNAL SAMBHAIR SINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

ADITYA PRAVIN THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

OM SINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

SHAM VIJAY BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

OWNER

LITERARY/ DRAMATIC WORK PERSONAL FINANCE IS AN IMPORTANT ASPECT OF OUR LIVES, BUT MANAGING OUR MONEY CAN SOMETIMES BE OVERWHELMING AND CONFUSING.

PERSONAL FINANCE MANAGER

ENGLISH

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

VARUN VILAS URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

KUNAL SAMBHAIR SINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907


ADITYA PRAVIN THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

OM SINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907


SHAM VIJAY BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907

UNPUBLISHED

N.A.



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
REGISTRATION AND PROTECTION



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिनिधि कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India


Date: 05/09/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-132852/2023
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAURABH SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHIVAM SINGH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VINIT WARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAURABH SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHIVAM SINGH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VINIT WARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
3. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का विवरण Nature of the applicant's interest in the copyright of the work 4. कृति का वर्ण और वर्णन Class and description of the work 5. कृति का शीर्षक Title of the work 6. कृति की भाषा Language of the work 7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	OWNER LITERARY / DRAMATIC WORK OR OUR PROJECT AIMS TO REVOLUTIONIZE HEALTHCARE BY HARNESSING THE POWER OF PERSONALIZED MEDICINE USING ADVANCED TECHNOLOGIES, WE ANALYZE GENETIC PROFILES, LIFESTYLE CHOICES, AND HEALTH INFORMATION TO OF PERSONALIZED MEDICINE- ADVANCING HEALTHCARE THROUGH AI-ENABLED PERSONALIZED MEDICINE ENGLISH MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAURABH SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHIVAM SINGH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VINIT WARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished 9. प्रकाशक का नाम और पता तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher 10. यह कि प्रकाशक के वर्ष और देश, यदि प्रकाशक के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers 11. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का विवरण, पता और राष्ट्रियता और अन्य अधिकारों के विवरण के साथ प्रत्येक व्यक्ति का विवरण, पता और राष्ट्रियता Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	N.A. N.A. N.A. MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAURABH SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHIVAM SINGH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VINIT WARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

Register of Copyrights




**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
BUREAU OF PATENTS & TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATORS



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक Dated: 04/09/2023

1. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कृति का वर्णन Class and description of the work

5. कृति का लेखक Name of the author

6. कृति की भाषा Language of the work

7. रचना का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचना की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कृति प्रकाशित की या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished

9. प्रकाशक का नाम और पता तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. बाद की प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

L-132795/2023

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ANURAG KHANDERAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DAMINI MALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

SUYASH MARATHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DIVYA KUDALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

JESSICA KHARCHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

OWNER

LITERARY/ DRAMATIC WORK PUNCTURED TIRES OR FLAT TIRES ARE A COMMON ISSUE FOR ALL TYPES OF VEHICLES, AND TWO WHEELER ELECTRIC VEHICLES ARE NO EXCEPTION, PUNCTURES CAN LEAVE RIDERS STRANDED ON THE ROAD, OFTEN IN UNSAFE CONDITI

PUNCTURE DETECTION FOR TWO-WHEELER ELECTRONIC VEHICLE

ENGLISH

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ANURAG KHANDERAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DAMINI MALLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

SUYASH MARATHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN



DIVYA KUDALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN


JESSICA KHARCHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN

UNPUBLISHED


N.A.

N.A.

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA BURDEN OF PROTECTION IS OUR RESPONSIBILITY		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक/Dated: 04-10-2023				
1.	रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number	L-134146/2023		
2.	अप्प्लिकेंट का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN DR. VILAS DEOTARE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN		
3.	कृति के प्रति लिप्यधिकार में आने वाले हिस्से की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4.	कृति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK PATIENT APPOINTMENT MANAGEMENT SYSTEM THAT ENHANCES THE HOSPITAL EXPERIENCE BY PROVIDING PATIENTS WITH REAL TIME INFORMATION ABOUT THEIR APPOINTMENT NUMBER AND ESTIMATED WAITING TIME FOR TREATMENT. TH		
5.	कृति का शीर्षक Title of the work	PATIENT CARE PRO-REDUCING WAITING TIMES AND IMPROVING HOSPITAL EFFICIENCY		
6.	कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH		
7.	एखिका का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचनाकार की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN DR. VILAS DEOTARE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN		
8.	कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9.	ग्रन्थ प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	ग्रन्थ के प्रकाशकों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		
11.	कृति में प्रति लिप्यधिकार राशि विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताओं और अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिकार के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN DR. VILAS DEOTARE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN		
12.	ग्रन्थ अधिकारों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं, यदि कोई हों, जो प्रति लिप्यधिकार राशि अधिकारों को संपूर्णतया अपने या अन्य किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए अंतरिक्ष देते हैं। Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN DR. VILAS DEOTARE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN		
13.	यदि कृति एक 'आर्टिस्टिक' कृति है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता सहित कृति का स्थान। (एक कलात्मक कृति के मामले में कृति पूरी होने तक उसे नहीं भी दिया जाना चाहिए)। If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.		
14.	यदि कृति एक 'आर्टिस्टिक' कृति है तो किसी भी ग्राहक या सेवाओं से संबंधित जानकारी शामिल करें। If the work is an 'Artistic work' which is used or capable of being used in relation to any goods or services, the application should include a certification from the Registrar of Trade Marks in terms of the provision to Sub-Section (j) of Section 45 of the Copyright Act, 1957.	N.A.		
15.	यदि कृति एक 'आर्टिस्टिक' कृति है, तो क्या यह डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्टर्ड है? यदि हाँ, तो डिजाइन नंबर। If the work is an 'Artistic work', whether it is registered under Design Act 2000, if you give details.	N.A.		




INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
www.ipindia.gov.in



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिनिधि अधिकारी कार्यालय, भारत सरकार

Copyright Office, Government Of India


महानगर, ०५०००१ ६०२०२२ ०५०००१ ६०२०२२ ०५०००१ ६०२०२२

दिनांक: 30/08/2023


क्र.	विवरण	विवरण
1.	पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-132694/2023
2.	अपेक्षक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ANURAG KHANDERAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DAMINI MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUYASH MARATHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DIVYA KUDALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN JESSICA KHARCHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN OWNER
3.	वर्गीकरण/Classification	LITERARY / DRAMATIC WORK, AS 90 OF INDIAN HOUSEHOLD USES LPG CYLINDER IT IS VERY IMPORTANT TO ENSURE THE SAFETY OF ALL THIS HOUSEHOLD. THE FUEL GAS KNOWN AS LIQUEFIED PETROLEUM GAS LPG OR LP GAS IS MADE UP OF A COMBUSTIBLE
4.	वर्गीकरण का वर्ण और वर्णन Class and description of the work	LPG GAS INDICATOR AND SAFETY DEVICE
5.	वर्गीकरण का नाम Title of the work	ENGLISH
6.	वर्गीकरण की भाषा Language of the work	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ANURAG KHANDERAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DAMINI MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUYASH MARATHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DIVYA KUDALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN JESSICA KHARCHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN UNPUBLISHED
7.	वर्गीकरण के नाम, पता और राष्ट्रियता का नाम Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	
8.	वर्गीकरण का नाम, पता और राष्ट्रियता का नाम Name, address and nationality of the publisher	
9.	वर्गीकरण का नाम, पता और राष्ट्रियता का नाम Name, address and nationality of the publisher	
10.	वर्गीकरण का नाम, पता और राष्ट्रियता का नाम Name, address and nationality of the publisher	

[illegible]

[illegible]




**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

Copyright Office, Government Of India

1. रजिस्ट्रेशन नंबर
Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक की स्वामित्व का विवरण
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कृति का वर्णन और वर्णन
Class and description of the work

5. कृति का शीर्षक
Title of the work

6. कृति की भाषा
Language of the work

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased date of his decease

8. कृति प्रकाशित या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. कृति में प्रतिलिप्यधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता और अनुमति और अनुमति के विवरण के साथ उनके अधिकार का विवरण, यदि कोई हो
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

L-132933/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

VAISHNAVI SAKPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

AISHWARYA KARANDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

OWNER

LITERARY/ DRAMATIC WORK MEMORY MOUSE: EASY DATA STORAGE AND TRANSFER

MEMORY MOUSE: EASY DATA STORAGE AND TRANSFER

ENGLISH

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

VAISHNAVI SAKPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

AISHWARYA KARANDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

VAISHNAVI SAKPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004





INDIAN

AISHWARYA KARANDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004



INDIAN

Date: 12/09/2023

Registrar of Copyrights

  		Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिनिधधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		वॉपिब मेप्टी रवडउ, जउड Copyright Office, Government of India	
प्रतिनिधधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		वॉपिब मेप्टी रवडउ, जउड Copyright Office, Government of India	
1. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	2. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	3. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	4. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant
5. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	6. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	7. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	8. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant
9. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	10. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	11. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant	12. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number आवकक क नाम, उमर आर उमरक Name, address and nationality of the applicant

 		Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिनिधिधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		Registration Number L-134164/2023	
1. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
2. रचना का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the work		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
3. रचना का विवरण Description of the work		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
4. रचना का वर्ग और वर्ण Class and description of the work		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
5. रचना का शीर्षक Title of the work		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
6. रचना की भाषा Language of the work		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
7. रचना के लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि लेखक का निधन हो चुका हो तो निधन का वर्ष Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
10. रचना के प्रकाशकों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
11. रचना में प्रतिनिधिकार, सार्वजनिक अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता और सार्वजनिक और सार्वजनिकों के हितों के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, और सार्वजनिकों के हितों के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, और सार्वजनिकों के हितों के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण Name, address and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA INVENTIONS DESIGNS TRADE MARKS GEOGRAPHICAL INDICATIONS		 Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		L-132851/2023	
1. आवेदन संख्या Registration Number		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
3. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
4. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		NIKHIL IDLGAWE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
5. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		RUTUJA JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
6. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SAMRUDDHI JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
7. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		NIKITA GARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
8. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		YASH HULGE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
9. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		OWNER	
10. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		LITERARY / DRAMATIC WORK TODAYS SOCIETY IS PLAGUED BY A SIGNIFICANT PROBLEM CALLED FOOD WASTE. A LOT OF INDIVIDUALS FORGET TO EAT THE FOOD THEY BUY BEFORE IT EXPIRES, OR THEY SOMETIMES BUY MORE FOOD THAN THEY CAN CONSUME BEF	
11. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		FRESH TRACK	
12. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		ENGLISH	
13. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
14. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
15. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
16. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		NIKHIL IDLGAWE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
17. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		RUTUJA JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
18. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		SAMRUDDHI JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
19. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		NIKITA GARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
20. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		YASH HULGE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
21. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		UNPUBLISHED	
22. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	
23. आवेदक का पता, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		N.A.	

  		Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिनिधि कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		विवरण Dated: 05/09/2023	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-132855/2023	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
2. आवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
3. आवेक के अधिकार का विवरण/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work		OWNER	
4. कार्य का वर्णन और वर्गीकरण/Class and description of the work		LITERARY / DRAMATIC WORK IN THIS CURRENT ERA. CHATGPT, A POWERFUL LANGUAGE MODEL, IN WHICH IT ANALYZES DATA AND PROVIDE MEANINGFUL PREDICTION FOR SMART AGRICULTURE. THE DATA WILL BE ABLE TO IDENTIFY, DETECT AND CLASSIFY THE PL	
5. कार्य का शीर्षक/Title of the work		INSIGHTS OF SVM BASED PLANT LEAF DISEASE DETECTION USING CHATGPT	
6. कार्य की भाषा/Language of the work		ENGLISH	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
8. कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished		UNPUBLISHED	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		N.A.	
10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		N.A.	
11. कृति में प्रतिनिधिकार प्राप्त विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और अनुमति प्राप्त और अनुमति के बिना के साथ प्रत्येक को प्रकाशित करने के अधिकारों के विवरण/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं यदि कोई हो, जो प्रतिनिधिकार वाले अधिकारों को सामुदायिक रूप से आवंटित करने के लिए अधिकृत हैं/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
13. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)		N.A.	
14. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति का नाम या संकेतों के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली प्रतिलिपि/If the work is an 'Artistic work', whether it is registered under Designs Act 2000, if you give details.		N.A.	
15. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो क्या यह डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्ट्रार के पास है/If the work is an 'Artistic work', whether it is registered under Designs Act 2000, if you give details.		N.A.	

 INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE भारत सरकार, औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.		 Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		1-133188/2023	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number 1-133188/2023		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507	
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant		INDIAN PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN HRISHIKESH TAWARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN AKSHADA MUNOT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN SAKSHI PHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN	
3. कृति के प्रतिनिधित्वकर्ता में आवेदक के हिस्से की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work		OWNER	
4. कृति का वर्ण और वर्णन Class and description of the work		LITERARY / DRAMATIC WORK	
5. कृति का शीर्षक Title of the work		AI BASED DEFECT ANALYSIS SYSTEM	
6. कृति की भाषा Language of the work		ENGLISH	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN HRISHIKESH TAWARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN AKSHADA MUNOT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN SAKSHI PHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN	
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished		UNPUBLISHED	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		N.A.	
10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		N.A.	
11. कृति में प्रतिनिधित्वकर्ता सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और अनुबंधों और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN HRISHIKESH TAWARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN AKSHADA MUNOT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN SAKSHI PHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN	
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हों, जो प्रतिनिधित्वकर्ता द्वारा अधिकारों का समुचित विवरण करने का अनुबंधित हों Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright		DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN HRISHIKESH TAWARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN AKSHADA MUNOT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN SAKSHI PHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN	

28



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, ज्ञानसंपदा अधिकार विभाग



भारत सरकार

Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number: **L-133284/2023**

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the applicant: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

3. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

4. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

5. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

6. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

8. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

9. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

10. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the author: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY PUNE-410507, INDIA**

1. प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता

3. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

4. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

5. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

6. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता



7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

8. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

9. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

10. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता

Registrar of Copyrights

 		Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India			
Registration Number L-132680/2023			
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OWNER			
LITERARY / DRAMATIC WORK CYCLING IS A FANTASTIC WAY TO REMAIN IN SHAPE, SEE NEW AREAS, AND TAKE IN NATURE. HOWEVER, FINDING THE PERFECT CYCLING ROUTE CAN BE A CHALLENGE, ESPECIALLY IF YOU'RE IN A NEW AREA OR NOT SURE WHERE TO			
CYCLE MOOD MATCHING YOUR MOOD WITH THE PERFECT CYCLING ROUTE			
ENGLISH			
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN			
UNPUBLISHED			
N.A.			
N.A.			
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN			
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN			
N.A.			



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, औद्योगिक संपत्ति कार्यालय, नई दिल्ली



भारत सरकार

Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिनिधिधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक: 19/09/2023

L-133250/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

ISHANT SHEWALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

ADINATH SAID, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

INDIAN

OWNER

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक का नाम पता और राष्ट्रियता है तो लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

4. रचना का वर्णन/Class and description of the work

5. रचना का शीर्षक/Title of the work

6. रचना की भाषा/Language of the work

7. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. रचना में प्रतिनिधिधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पता और राष्ट्रियता और अनुबंधों के विवरण के साथ उनके अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the content of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पता और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधिधिकार वाले अधिकारों को संपूर्णतया अपने या अनुबंधित रूप से संपूर्णतया सौंपे हैं, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright

13. यदि रचना एक 'सांस्कृतिक कार्य' है, तो रचना पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित मूल रचना का स्थान। (एक सांस्कृतिक कार्य के मामले में रचना पूरी होने का वर्ष या रचना का वर्ष दर्शाया जाना चाहिए)।/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक का नाम पता और राष्ट्रियता है तो लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

4. रचना का वर्णन/Class and description of the work

5. रचना का शीर्षक/Title of the work

6. रचना की भाषा/Language of the work

7. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. रचना में प्रतिनिधिधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पता और राष्ट्रियता और अनुबंधों के विवरण के साथ उनके अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the content of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any


12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पता और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधिधिकार वाले अधिकारों को संपूर्णतया अपने या अनुबंधित रूप से संपूर्णतया सौंपे हैं, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright

13. यदि रचना एक 'सांस्कृतिक कार्य' है, तो रचना पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित मूल रचना का स्थान। (एक सांस्कृतिक कार्य के मामले में रचना पूरी होने का वर्ष या रचना का वर्ष दर्शाया जाना चाहिए)।/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).

Registrar of Copyrights

  		Extracts from the Register of Copyrights 
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		
Registration Number		
1.	प्रतिलिप्यधिकार संख्या	L-134165/2023
2.	अवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MRUNAL PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
3.	कृति के प्रतिलिप्यधिकार में अवेक को हिस्से की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER
4.	कृति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY/DRAMATIC WORK THIS IDEA OFFERS AN EXTENSIVE SMART PARKING SYSTEM THAT INCLUDES A CREATIVE RESPONSE TO THE PROBLEM OF BLOCKED PARKING LANES. THE SYSTEM ADDS A NOVEL FEATUREA SIGNAL FOR PARKING, ALONG WITH THE ESSEN
5.	कृति का शीर्षक Title of the work	A SMART PARKING SYSTEM APPROACH-INNOVATIVE SOLUTIONS FOR OBSTRUCTED PARKING PATHS
6.	कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH
7.	रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MRUNAL PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
8.	कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED
9.	प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.
10.	बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.
11.	कृति में प्रतिलिप्यधिकार राशि विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं और समुदायन और अनुवर्षिकों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हों। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MRUNAL PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
12.	अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं, यदि कोई हों, जो प्रतिलिप्यधिकार : नाम, पता और राष्ट्रीयता वाले या अनुवर्षिकों के लिए अधिकृत हैं। Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorised to assign or licence of rights comprising the copyright	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MRUNAL PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
13.	यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता सहित मूल कृति का स्थान। (एक कलात्मक कृति के मामले में कृति पूरी होने का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए) If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)	N.A.

[illegible]


 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) BUREAU OF PATENTS AND TRADE MARKS GEOGRAPHICAL INDICATIONS	 सत्यमेव जयते	Extracts from the Register of Copyrights प्रतिनिधि कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India (Date) _____ Date: 15-09-2023 I-133131/2023 MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. YOGESH SHEPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MEHUL LIGADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUCHIT DWARKASINGH THAKUR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADINATH NARAYAN RAUT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VABHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA YUVRAJ GARLUDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PRADESHA KHANDU TOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN OWNER LITERARY / DRAMATIC WORK EVENTS, CONFERENCES, AND MEETINGS FREQUENTLY TAKE PLACE IN LARGE ROOMS AND HALLS, WHICH USE A LOT OF ENERGY FOR LIGHTING AND CLIMATE CONTROL. HOWEVER, A LOT OF THESE AREAS ARE FREQUENTLY EMPTY OR JUST AUTOMATING ENERGY USAGE AND SECURITY IN LARGE SPACES WITH COMPUTER VISION AND IOT ENGLISH MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. YOGESH SHEPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MEHUL LIGADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUCHIT DWARKASINGH THAKUR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADINATH NARAYAN RAUT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN VABHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA YUVRAJ GARLUDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PRADESHA KHANDU TOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A., भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India,
---	--	---

  		Extracts from the Register of Copyrights 
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		
L-134164/2023		
1. रजिस्ट्रेशन नंबर/Registration Number	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता/Name, address and nationality of the applicant	DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUDIP UMBARDAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SAMARTH BAGUL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN INDRAJEET PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SWARAJ NAIKARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
3. कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER	
4. कृति का वर्ग और वर्णन/Class and description of the work	LITERARY/ DRAMATIC WORK IN TODAY'S ERA, THERE ARE LOTS OF FRAUD DRIVING LICENCE CASES ARE BEING EXPOSED AT VARIOUS PLACES DURING EXAMINATION. THESE FRAUD DRIVING LICENCE ARE CREATING MAJOR ISSUE IN OUR SYSTEM. DUE TO THIS	
5. कृति का शीर्षक/Title of the work	DETECTION OF FRAUD DRIVING LICENCE USING APPLICATION	
6. कृति की भाषा/Language of the work	ENGLISH	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUDIP UMBARDAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SAMARTH BAGUL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN INDRAJEET PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SWARAJ NAIKARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.	
10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.	
11. कृति में प्रतिलिप्यधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पता और राष्ट्रीयता और समुपलब्ध और अनुपलब्ध के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SUDIP UMBARDAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN	

बौद्धिक संपदा कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.		बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.	
		Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		L-134162/2023	
Date: 05/10/2023			
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
2. आवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
3. आवेक के अधिकारी/अधिकार के धारक की प्रवृत्ति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER	LITERARY / DRAMATIC WORK FOOD QUALITY ANALYSIS USING IMAGES IS AN EMERGING FIELD THAT HAS GAINED ATTENTION IN RECENT YEARS. WITH THE ADVANCEMENTS IN MACHINE LEARNING AND COMPUTER VISION, IT IS NOW POSSIBLE TO AUTOMATICALLY	
4. कार्य का वर्ण और वर्णन Class and description of the work	BEST FOOD QUALITY ANALYSIS USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) MACHINE LEARNING ALGORITHM	ENGLISH	
5. कार्य का शीर्षक Title of the work	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
6. कार्य की भाषा Language of the work	PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	AKSHAY SANDIPAN KARNAVAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
8. कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9. प्रकाशक का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10. बाद में प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		
11. यदि वे अधिकारधारक या अन्य व्यक्ति को स्वामी के रूप में अपने पते और स्थानों पर अनुमति देना चाहें तो उनके नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं, यदि कोई हों, जो अधिकारधारक को अनुमति देना चाहें तो उनके नाम, पते और राष्ट्रीयताएं Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright	PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	
13. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है, तो कार्य पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता, यदि कोई हो, और कार्य के प्रकार का विवरण If the work is an "Artistic work", the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work (In the case of an architectural work, the year of completion of the work must also be shown).	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507	INDIAN	

37

  Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India Date: 24/08/2023	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number I-132315/2023	2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 SAKSHI BIRADAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 SHIVANI JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507
3. कृति के प्रतिनिधिपरिचर में आवेदक के लिए की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER
4. कृति का नाम और वर्ण Title and description of the work LITERARY / DRAMATIC WORK THE ONLINE BUS PASS SOFTWARE SYSTEM WILL HELP USER TO GET ONLINE BUS PASS EFFICIENTLY. USERS WILL NOT BE NEEDED TO WAIT IN LONG QUEUES FOR BUS PASS.	INDIAN
5. कृति का वर्ण Title of the work	INDIAN
6. कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	INDIAN
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.
10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.
11. कृति में प्रतिनिधित्वकारी साहित्य सिगनेचर अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता और अनुमति देने के लिए अधिकार के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	INDIAN
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधित्वकारी वारे अधिकारों को सामुहिकता करने या अनुमति देने के लिए अधिकार हैं। Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	INDIAN
13. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो कृति का मालिक है। (एक कलात्मक कृति के मामले में कृति पूरी होने का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए।) If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)	N.A.
14. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है जो किसी भी गान या सेवाओं के प्रदर्शन में उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने से पहले है, तो आवेदन में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 की उप-धारा (i) के तहत अनुमति प्राप्त फिडेलिटी प्रमाण सहित होना चाहिए। If the work is an 'Artistic work' which is used or capable of being used in relation to any goods or services, the application should include a certification from the Registrar of Trade Marks in terms of the provision to Sub-Section (i) of Section 45 of the Copyright Act, 1957.	N.A.



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
GOVERNMENT OF INDIA



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

1. प्रतिलिप्यधिकार नंबर: **L-132327/2023**

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

3. प्रतिलिप्यधिकार के अधिकार के तहत की प्रकृति: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

4. प्रतिलिप्यधिकार के वर्णन: **LITERARY/ DRAMATIC WORK, PERSONAL FINANCE IS AN IMPORTANT ASPECT OF OUR LIVES, BUT MANAGING OUR MONEY CAN SOMETIMES BE OVERWHELMING AND CONFUSING. FORTUNATELY, ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY HAVE MADE IT EASIER THAN EVER TO STAY**

5. प्रतिलिप्यधिकार का शीर्षक: **PERSONAL FINANCE APP**

6. प्रतिलिप्यधिकार की भाषा: **ENGLISH**

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

8. प्रतिलिप्यधिकार है या अज्ञात: **UNPUBLISHED**

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता: **N.A.**

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता: **N.A.**

11. प्रतिलिप्यधिकार के अधिकार के स्वामी के नाम, पता और राष्ट्रियता: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

3. प्रतिलिप्यधिकार के अधिकार के तहत की प्रकृति: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

4. प्रतिलिप्यधिकार के वर्णन: **LITERARY/ DRAMATIC WORK, PERSONAL FINANCE IS AN IMPORTANT ASPECT OF OUR LIVES, BUT MANAGING OUR MONEY CAN SOMETIMES BE OVERWHELMING AND CONFUSING. FORTUNATELY, ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY HAVE MADE IT EASIER THAN EVER TO STAY**

5. प्रतिलिप्यधिकार का शीर्षक: **PERSONAL FINANCE APP**

6. प्रतिलिप्यधिकार की भाषा: **ENGLISH**

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

8. प्रतिलिप्यधिकार है या अज्ञात: **UNPUBLISHED**

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता: **N.A.**

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता: **N.A.**




11. प्रतिलिप्यधिकार के अधिकार के स्वामी के नाम, पता और राष्ट्रियता: **MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507**

Registrar of Copyrights

YASH BELVALEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507


[illegible]

[illegible]


 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY GEOSPATIAL INDIAN PATENT OFFICE		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिनिधि कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
वर्क/Work: L-132330/2023				
वर्क/Work: MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
वर्क/Work: INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
वर्क/Work: INDIAN BHOYAR VAISHNAVI TUKARAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
वर्क/Work: INDIAN PRAYUKTI SANTOSH DUBEY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
वर्क/Work: INDIAN OWNER				
LITERARY / DRAMATIC WORK: ORBIT OF MARKET BOAT IS THE ANALYSIS OF THE STRONGEST RULE BETWEEN A PRODUCT AND A PARAMETER. THIS ANALYSIS LOOKS AT THE RELATIONSHIPS BETWEEN A PARTICULAR PRODUCT AND A PARAMETER.				
ORBIT OF MARKET BOAT				
ENGLISH				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
BHOYAR VAISHNAVI TUKARAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PRAYUKTI SANTOSH DUBEY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
UNPUBLISHED				
N.A.				
N.A.				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
BHOYAR VAISHNAVI TUKARAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PRAYUKTI SANTOSH DUBEY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
BHOYAR VAISHNAVI TUKARAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
PRAYUKTI SANTOSH DUBEY, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507				
INDIAN				
N.A.				
N.A.				

  		Extracts from the Register of Copyrights 
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		
1. प्रतिकरण संख्या/Registration Number 1-132332/2023	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
3. कृति के प्रतिनिधित्वकर्ता के अधिकार के लिए की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	AKSHAY SANDIPAN KARNAVAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
4. कृति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY/ DRAMATIC WORK USING A TEMPERATURE SENSOR TO MEASURE THE TEMPERATURE OF A CHILD WHILE BABYSITTING IS A HELPFUL TOOL TO ENSURE THAT THE CHILDS HEALTH IS MONITORED CLOSELY.	
5. कृति का शीर्षक Title of the work	IN-HOUSE HEALTHCARE MONITORING SYSTEM FOR TODDLERS	
6. कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH	
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED	
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.	
10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हैं, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and name, address and nationalities of the publishers	N.A.	
11. कृति में प्रतिनिधित्वकारी व्यक्ति विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और अनुमति के बिना के नाम प्रत्येक के अधिकार का विस्तार, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हैं, जो प्रतिनिधित्वकारी वाले अधिकारों को सामुदायिक कर्तव्य के अंतर्गत देते हैं Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
13. यदि कृति एक 'कलात्मक कृति' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता (यदि कृति का स्थान)। (एक कलात्मक कृति के मामले में कृति पूरी होने से पहले की तिथि का उल्लेख करना चाहिए) If the work is an 'Artistic work', the location of the original work including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRIAL AFFAIRS GEOGRAPHICAL INDICATORS		 भारत सरकार Government of India		Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक/Dated-24/08/2023						
1.	रजिस्ट्रेशन संख्या/Registration Number	L-132336/2023				
2.	अपीकृत का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN DR. SATISH MORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN SAAKSHI KOBARNÉ, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN VAISHNAVI SAPKAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN AISHWARYA KARANDÉ, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN JAGRUTI RAUT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN SUJAL KOLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN RUTIKA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
3.	सृष्टि के प्रतिलिप्यधिकार में अपीकर्ता को हिस्सा की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER				
4.	सृष्टि का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY /DRAMATIC WORK THE USE OF QR CODES ON MEDICATION LABELS IS A REVOLUTIONARY CONCEPT THAT HAS THE POTENTIAL TO TRANSFORM THE WAY MEDICATIONS ARE LABELED AND TRACKED.				
5.	सृष्टि का शीर्षक Title of the work	QR MED: MEDICATION SAFETY WITH QR CODES				
6.	सृष्टि की भाषा Language of the work	ENGLISH				
7.	रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN DR. SATISH MORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN SAAKSHI KOBARNÉ, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN VAISHNAVI SAPKAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN AISHWARYA KARANDÉ, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN JAGRUTI RAUT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN SUJAL KOLI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN RUTIKA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
8.	सृष्टि प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED				
9.	प्रकाश प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.				
10.	आगे के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and addresses and nationalities of the publishers	N.A.				




INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
(WORLD INNOVATION HUBS)
GEOSPATIAL INDIAN



सत्यमेव जयते

Extracts from the
Register of
Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | **Copyright Office, Government Of India**

वर्ष: २०२४
दिनांक: 24/08/2023

1-132337/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
VAIBHAV JADHAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
ADITYA GARLIDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
OWNER
LITERARY / DRAMATIC WORK THE CYCLONE FORECASTING SYSTEM IS A DIAGNOSTIC MODEL THAT PREVENTS SUCH DISASTERS AND USES SATELLITE MEASUREMENTS TO INCREASE THE INTENSITY OF TROPICAL CYCLONES.
CYCLONE FORECASTING SYSTEM
ENGLISH
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
VAIBHAV JADHAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
ADITYA GARLIDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
UNPUBLISHED
N.A.
N.A.
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
VAIBHAV JADHAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
ADITYA GARLIDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
VAIBHAV JADHAO, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
ADITYA GARLIDKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416907
INDIAN
N.A.

46



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government of India

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

Registration Number: **L-132340/2023**

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507, INDIAN

PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507, INDIAN

DIPALI GAWALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507, INDIAN

KOMAL DHARAK, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507, INDIAN

OWNER

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

3. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक मृत हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

4. रचना का वर्ण और वर्णन/Class and description of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

5. रचना का शीर्षक/Title of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

6. रचना की भाषा/Language of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

7. रचना का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक मृत हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

11. रचना में प्रतिनिधित्वकारी राशि विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधित्वकारी वाले अधिकारों को सार्वजनिक करने या अनुबंधों के लिए अधिकार हैं।/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

13. यदि रचना एक 'कलात्मक रचना' है, तो रचना पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित रचना की स्थिति (एक कलात्मक रचना के मामले में रचना की स्थिति का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए)।/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

3. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक मृत हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

4. रचना का वर्ण और वर्णन/Class and description of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

5. रचना का शीर्षक/Title of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

6. रचना की भाषा/Language of the work

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

7. रचना का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचना का लेखक मृत हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

11. रचना में प्रतिनिधित्वकारी राशि विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधित्वकारी वाले अधिकारों को सार्वजनिक करने या अनुबंधों के लिए अधिकार हैं।/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.


13. यदि रचना एक 'कलात्मक रचना' है, तो रचना पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित रचना की स्थिति (एक कलात्मक रचना के मामले में रचना की स्थिति का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए)।/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)

बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India.

Registrar of Copyrights



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
भारत सरकार, नई दिल्ली



भारत सरकार

Extracts from the
Register of
Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक: 24/08/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number
L-132341/2023

2. आवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता
Name, address and nationality of the applicant

3. कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आने वाले हिस्से की प्रकृति
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कृति का वर्ग और वर्ण
Class and description of the work

5. कृति का शीर्षक
Title of the work

6. कृति की भाषा
Language of the work

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा निधन की तारीख
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished

9. प्रकाशक का नाम और पता, वर्ष प्रकाशन का नाम, पता और राष्ट्रीयता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशनों के नाम, वर्ष और राष्ट्रीयता
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. KUNAL SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. VARUN URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. ADITYA THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. OMSINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. SHAM BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

INDIAN

LITERARY/ DRAMATIC WORK THIS SEARCH ADS TO HELP STUDENTS WHO HAVE TRANSFERRED THEIR RESIDENCE FOR COLLEGE OR EDUCATIONAL PURPOSES TO FIND THE BEST MESS NEARBY.

MESS RATING MODULE

ENGLISH

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. KUNAL SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. VARUN URADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. ADITYA THORAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. OMSINGH VATPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

MR. SHAM BORNAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507

INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.



Registrar of Copyrights



**INTELLECTUAL
PROPERTY
INDIA**

भारत सरकार, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India



**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक: 24/08/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

3. कृति में प्रतिनिधिकार में आवेदक के हिस्से की प्रकृति/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कृति का वर्ण और वर्ण/Class and description of the work

5. कृति का शीर्षक/Title of the work

6. कृति की भाषा/Language of the work

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

9. प्रकाशक का वर्ष और देश का प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. कृति में प्रतिनिधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता और अनुबंधों और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हों, जो प्रतिनिधिकार वाले अधिकारों को समुचित रूप से या अनुबंधित रूप से दिए अधिकार को/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

E-132342/2023

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

OWNER

LITERARY/ DRAMATIC WORK AN IDEA OF A SOFTWARE APPLICATION THAT HELPS YOU ASSESS YOUR SINGING SKILLS WITH SOME ALGORITHM ANALYSIS AND COMPARE YOUR OWN SINGING FREQUENCY AND COMPARE IT TO THE FREQUENCY

SINGING PITCH ANALYZER COMPARE YOUR SINGING TO A PROFESSIONAL

ENGLISH

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

ATHARVA WANKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

DIYA SATPUTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA REGISTRY OF PATENTS, TRADE MARKS AND DESIGNS		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिनिधि कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India				
Registration Number				
L-132368/2023				
Name, address and nationality of the applicant				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
Name, address and nationality of the author				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
Name, address and nationality of the publisher				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
Class and description of the work				
LITERARY / DRAMATIC WORK A CRITICAL COMPONENT OF FINANCIAL SECURITY IS FRAUD DETECTION FOR CREDIT CARD PROJECTS, WHICH ENTAILS SPOTTING AND STOPPING FRAUDULENT ACTIVITY CONNECTED TO CREDIT CARD TRANSACTIONS.				
Significance of fraud detection in credit card transactions for financial security				
English				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
Whether the work is published or unpublished				
UNPUBLISHED				
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher				
N.A.				
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers				
N.A.				
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
RUTUJA JAMBHULKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN				
YASH DHKNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government Of India.	
	 संघीय प्रतीक Extracts from the Register of Copyrights
प्रतिलिख्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India	
दिनांक Dated-24/08/2023	
1. पंजीकरण संख्या Registration Number	L-132317/2023
2. आवेदक का नाम, पास तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIAN VEDANT KAKADE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA MADHIR DHOLE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA
3. कृति के प्रतिनिधित्वकर्ता में आवेदक को दिए की प्रवृत्ति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER
4. कृति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK DISTANCE WIRELESS CHARGING OR ALSO KNOWN AS REMOTE WIRELESS CHARGING IS A TECHNOLOGY WHICH ENABLES CHARGING OF ELECTRONIC DEVICES WITHOUT ANY NEED OF PHYSICAL CONTACT. DISTANCE WIRELESS CHARGING
5. कृति का शीर्षक Title of the work	ENGLISH
6. कृति की भाषा Language of the work	HINDI
7. रचनात्मक का नाम, पते और राष्ट्रियता यदि रचनाकार जी मृत हो गई है : अग्रलिखिताएँ साक्षात् अद्युल्लेखनीय हैं। Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA VEDANT KAKADE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA MADHIR DHOLE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश जहां प्रकाशन का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.
10. बाद से प्रकाशाओं के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.
11. कृति में प्रतिनिधित्वकर्ता सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA VEDANT KAKADE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA MADHIR DHOLE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA
12. अन्य व्यक्ति(ओं) के नाम जो और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हों जो प्रतिनिधित्वकर्ता द्वारा अधिनियमित की जा सकती हैं उनके नाम, पते और राष्ट्रियता Other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright	MR. PRITAM RAMESH AHIRE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA VEDANT KAKADE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA MADHIR DHOLE , NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY -410507 INDIA
13. यदि कृति एक सजातीय कार्य है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पते और राष्ट्रियता यदि वह कलागत काम है (एक वास्तुकाल कृति के मामले में कृति पूरी होने का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए) If the work is an Artistic Work, the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.



Registrar of Copyrights

 		Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		विवरण Dated: 24/08/2023	
1.	परीचरण संख्या Registration Number	I-132331/2023	
2.	अपेक्षक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHAMESH MANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN NISHANT CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
3.	कृति के प्रतिलिप्यधिकार में अधिकार के विवरण की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER	
4.	कृति का वर्ग और वर्ण Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK DAY BY DAY. APPLICATIONS ARE PERFORMED BY ELECTRONIC DEVICES. SO INORDER TO INCREASE THE PERFORMANCE OF THE DEVICE THAT WORKS ON BATTERY, BATTERYS LIFE MUST NOT BE DEGRADED AS IT HAPPENS.	
5.	कृति का शीर्षक Title of the work	AUTO ON-OFF POWER SUPPLY (SWITCH) ON CHARGING OR ON FULL CHARGING OF BATTERY	
6.	कृति की भाषा Language of the work	ENGLISH	
7.	रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHAMESH MANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN NISHANT CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
8.	कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED	
9.	प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.	
10.	कृति के प्रकाशन का वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.	
11.	कृति में प्रतिलिप्यधिकार राशति विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता और अनुमति प्राप्त करने या अनुमति देने के लिए अधिकारों का विवरण, यदि कोई हो Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHAMESH MANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN NISHANT CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
12.	अन्य धारकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता, यदि कोई हो, जो प्रतिलिप्यधिकार या अधिकारों का हस्तान्तरण करने या अनुमति देने के लिए अधिकारों का विवरण, यदि कोई हो Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHAMESH MANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN NISHANT CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
13.	यदि कृति एक 'आर्किटेक्चरल वर्क' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता सहित मूल कृति का स्थान। (एक आर्किटेक्चरल वर्क के मामले में कृति पूरी होना एक वर्ष से बिल्कुल आवश्यक नहीं है।) If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.	

58


  	
Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India	
Registration Number L-132338/2023	
1. पंजीकरण संख्या (Registration Number) 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता (Name, address and nationality of the applicant) 3. कृति को प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकार के विषय की प्रकृति (Nature of the applicant's interest in the copyright of the work) 4. कृति का वर्ग और वर्णन (Class and description of the work) 5. कृति का शीर्षक (Title of the work) 6. कृति की भाषा (Language of the work) 7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि (Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease) 8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित (Whether the work is published or unpublished) 9. प्रकाशक का नाम और पता तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता (Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher) 10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता (Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers) 11. कृति में प्रतिनिधित्वकारी सहित विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पते और देश (Name, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any) 12. अन्य व्यक्तिओं के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो प्रतिनिधित्वकारी : वैसे अधिकारों को सारगर्भित करने या अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं (Name, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright) 13. यदि कृति एक 'कलात्मक कार्य' है, तो कृति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित मूल कृति का वर्णन (If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown))	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KAUSTUBH ROHIDAS GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SHUBHAM GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KAUSTUBH ROHIDAS GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SHUBHAM GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KAUSTUBH ROHIDAS GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SHUBHAM GADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN N.A.

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA BUREAU OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
Date: 04/10/2023				
1.	पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-134106/2023		
2.	अपनेका का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
3.	वर्णन/Description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK THE AVAILABILITY OF A RELIABLE AND EFFICIENT PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM IS CRUCIAL FOR THE SMOOTH FUNCTIONING OF ANY CITY IN MAHARASHTRA. A STATE IN INDIA, THE DAILY OPERATION OF NUMEROUS BUSES WITH		
4.	वर्णन का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	ONLINE PAYMENT OF BUS TICKETS: ENHANCING CONVENIENCE AND EFFICIENCY IN MAHARASHTRA'S PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM		
5.	वर्णन का शीर्षक Title of the work	ENGLISH		
6.	वर्णन की भाषा Language of the work	INDIAN		
7.	वर्णन का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
8.	वर्णन प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9.	वर्णन प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	वर्णन के प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		


 		Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
Registration Number				
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number		L-132935/2023		
2. आवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
3. आवेक के विषय का वर्णन Class and description of the work		LITERARY/ DRAMATIC WORK, THE PURPOSE OF THIS PROJECT IS TO FACILITATE A USER'S JOURNEY FROM POINT A TO POINT B WHILE TAKING INTO ACCOUNT THE HOTELS CLOSE BY, C, D, AND E, ACCESSIBLE ROADS G, H, AND I, AND ECONOMICALLY		
4. आवेक के शीर्षक Title of the work		EASY TO TRAVEL USING TOUR WITH US GUIDE APP		
5. आवेक की भाषा Language of the work		ENGLISH		
6. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
7. प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि प्रकाशक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the publisher		ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
8. प्रकाशक के वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of publication and name, address and nationality of the publisher		N.A.		
9. प्रकाशक के वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		N.A.		
10. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
11. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
12. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
13. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ADITYA VITTHAL PAPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
14. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		VISHAL BHUPESH PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
15. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		HARSHAL PRAVIN PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
16. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		UNPUBLISHED		
17. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
18. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
19. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
20. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ADITYA VITTHAL PAPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
21. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		VISHAL BHUPESH PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
22. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		HARSHAL PRAVIN PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
23. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		UNPUBLISHED		
24. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
25. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
26. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
27. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ADITYA VITTHAL PAPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
28. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		VISHAL BHUPESH PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
29. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		HARSHAL PRAVIN PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
30. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		UNPUBLISHED		
31. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
32. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
33. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
34. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		ADITYA VITTHAL PAPAL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
35. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		VISHAL BHUPESH PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
36. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		HARSHAL PRAVIN PAWAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN		
37. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work		UNPUBLISHED		
38. आवेक के विषय का वर्णन Description of the work				

52


 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारत सरकार, वित्त विभाग, प्रतिलिपि अधिकार विभाग भारत सरकार, वित्त विभाग, प्रतिलिपि अधिकार विभाग		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिपि अधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
Registration Number				
1-134231/2023				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
DR. ANAND DAULATABAD, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
Author's Name, Address and Nationality of the Applicant				
OWNER				
LITERARY / DRAMATIC WORK THE EMPOWERING USERS WITH SMART METERING AND DATA VISUALIZATION INITIATIVE INTENDS TO TRANSFORM HOW POWER USE IS TRACKED AND CONTROLLED IN HOMES. THE METHOD CREATES A DAILY CONSUMPTION LINE CHART				
EMPOWERING USERS WITH SMART METERING AND DATA VISUALIZATION				
ENGLISH				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
DR. ANAND DAULATABAD, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
UNPUBLISHED				
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher				
N.A.				
Year and country of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers				
N.A.				
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
DR. ANAND DAULATABAD, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				
PAVANKUMAR SANTOSH PANDIT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004				



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, बौद्धिक संपदा कार्यालय



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिनिधि अधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

Date: 19/09/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-133279/2023
2. आवेक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant 3. आवेक के प्रतिनिधि अधिकार के विवरण Nature of the applicant's interest in the copyright of the work 4. कृति का वर्ग और वर्ण Class and description of the work 5. कृति का शीर्षक Title of the work 6. कृति की भाषा Language of the work 7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease 8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished 9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher 10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers 11. कृति में प्रतिनिधि अधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियताओं और अनुपस्थित और अनुपस्थितों के विवरण के साथ प्रत्येक अधिकार का विवरण, यदि कोई हो Name, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any 12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, जो प्रतिनिधि अधिकारों को सौंपने के लिए अधिकृत हैं Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	OWNER LITERARY / DRAMATIC WORK THE ESIGNALNAV INTELLIGENT NAVIGATION ASSISTED INDICATOR ACTIVATION INITIATIVE AIMS TO REDUCE THE RISING NUMBER OF TRAFFIC ACCIDENTS BROUGHT ON BY DRIVERS FAILING TO UTILISE THEIR TURN SIGNALS. WITH INTELLIGENT NAVIGATION ASSISTED INDICATOR (ACTIVATION)(ESIGNALNAV) ENGLISH MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHRIKRISHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHRIKRISHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHRIKRISHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY



भारत सरकार

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



प्रतिनिधिधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

Date: 29/08/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number
L-132543/2023

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant
MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
HRITICK SIDANA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
KUSHAGAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
PRATIK GAUTAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
SUMIT SWAMI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN

3. आवेदक की प्रतिनिधिधिकार में अधिकार के तहत की प्रकृति/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work
LITERARY/DRAMATIC WORK BOOK PREDICTOR

4. आवेदक का वर्ग और वर्ण/Class and description of the work
BOOK PREDICTOR

5. आवेदक का पता/Tale of the work
ENGLISH

6. आवेदक की भाषा/Language of the work
ENGLISH

7. रचनाकार का नाम, पता तथा राष्ट्रियता तथा यदि रचनाकार की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease
MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
HRITICK SIDANA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
KUSHAGAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
PRATIK GAUTAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
SUMIT SWAMI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN

8. प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished
UNPUBLISHED

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher
N.A.

10. वर्षों के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers
N.A.

11. आवेदक ने प्रतिनिधिधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताओं और अनुबंधों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any
MR. RAJESH MHASKE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
HRITICK SIDANA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
KUSHAGAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
PRATIK GAUTAM, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN
SUMIT SWAMI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507
INDIAN

Registrar of Copyrights

  Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India	
Registration Number L-134167/2023	
1. पंजीकरण संख्या (Registration Number) 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता (Name, address and nationality of the applicant) 3. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम (Name of the person representing the work) 4. कृति का वर्ग और वर्ण (Class and description of the work) 5. कृति का शीर्षक (Title of the work) 6. कृति की भाषा (Language of the work) 7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक का मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि (Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease) 8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित (Whether the work is published or unpublished) 9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता (Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher) 10. वर्ष के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता (Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers) 11. कृति में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियता और अनुबंधों के अनुसार उनके विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो (Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any) 12. अन्य व्यक्तिों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो अधिकारों को सार्वजनिक करने या अनुबंधित करने के लिए अधिकृत हैं (Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright)	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. SATYAJIT SIRSAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM MASHERE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA JAGADALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. SATYAJIT SIRSAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM MASHERE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA JAGADALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF. SATYAJIT SIRSAT, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN SHUBHAM MASHERE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN ADITYA JAGADALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

 		Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		वैयक्तिक संपत्ति कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India	
पंजीकरण संख्या/Registration Number अधिकार का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant		L-132840/2023 PROF. JAYASHRI SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. RENUKA KAJALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN TANMAY BHOTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SUMEDH BHOSALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRANAV GURAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PANKAJ DAHIWALKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
कृति के प्रतिनिधित्वकर्ता के अधिकार के विषय में प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work		OWNER	
कृति का वर्णन और वर्णन Class and description of the work		LITERARY / DRAMATIC WORK	
कृति का विषय Title of the work		STOCK MARKET ANALYSIS BY USING PYTHON CODE	
कृति की भाषा Language of the work		ENGLISH	
एवंशिकता का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि रचनाकार की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		PROF. JAYASHRI SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. RENUKA KAJALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN TANMAY BHOTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SUMEDH BHOSALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRANAV GURAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PANKAJ DAHIWALKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished		UNPUBLISHED	
प्रकाशक प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		N.A.	
वर्ष और देश तथा पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers		N.A.	
कृति में प्रतिनिधित्वकर्ता सहित विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं और अनुपस्थिति के हितों के स्वामियों के अधिकार का विवरण, यदि कोई हो Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any		PROF. JAYASHRI SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. RENUKA KAJALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN TANMAY BHOTE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SUMEDH BHOSALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRANAV GURAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PANKAJ DAHIWALKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	


 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA BUREAU OF PATENTS AND TRADE MARKS		 Extracts from the Register of Copyrights	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		Copyright Office, Government of India Date: 04-09-2023	
1. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant		L-132841/2023 PROF. JAYASHRI SHINDE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PROF. RENUKA KAJALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OM JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN PRATHAMESH JAGDALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN UJWAL DESALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SUMIT ATHARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN UDAY DHANGAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OMKAR DASHRATHE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN	
2. प्रतिलिप्यधिकार में आनेवाले कार्य का वर्णन Nature of the applicant's interest in the copyright of the work		LITERARY/ DRAMATIC WORK	
3. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Class and description of the work		PRODUCT ENERGY FROM PIEZOELECTRIC	
4. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Title of the work		ENGLISH	
5. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Language of the work		UNPUBLISHED	
6. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease		UNPUBLISHED	
7. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Whether the work is published or unpublished		UNPUBLISHED	
8. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher		UNPUBLISHED	
9. प्रतिलिप्यधिकार का वर्णन Years and countries of subsequent publications, if any, and name, address and nationality of the publishers		UNPUBLISHED	

[illegible]

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारतीय औद्योगिक अल्पसंपत्ति विभाग GEORGICAL PROPERTIES DEPARTMENT		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिनिधि अधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
Registration Number				
Author's Name, Place and Nationality Name, address and nationality of the applicant				
Title of the work Title of the work				
Language of the work Language of the work				
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease				
Whether the work is published or unpublished Whether the work is published or unpublished				
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher				
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers				
Registration Number				
Author's Name, Place and Nationality Name, address and nationality of the applicant				
Title of the work Title of the work				
Language of the work Language of the work				
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease				
Whether the work is published or unpublished Whether the work is published or unpublished				
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher				
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers				




INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, वॉटिक संपत्ति कार्यालय



भारत सरकार, वॉटिक संपत्ति कार्यालय

Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार

1. **वर्गीकरण संख्या**
Registration Number

2. **आपने का नाम, पता तथा राष्ट्रियता**
Name, address and nationality of the applicant

3. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

4. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

5. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

6. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

7. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

8. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

9. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

10. **वर्गीकरण संख्या**
Classification Number

L-134163/2023

MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

DR. VILAS DEOTARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

RIDDHI BARKHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

SAMIKSHA ASODEKAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

TANVI BABAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

SRISHTI BOTHERA, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

RITUA KINE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004

UNPUBLISHED



N.A.


N.A.

Date: 05/10/2023


Registrar of Copyrights

  Extracts from the Register of Copyrights 	
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India	
Registration Number: E-133279/2023	
1. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
3. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
4. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
5. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
6. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	OWNER
7. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	LITERARY/DRAMATIC WORK THE ESIGNALNAV
8. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	INTELLIGENT NAVIGATION ASSISTED INDICATOR
9. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ACTIVATION INITIATIVE AIMS TO REDUCE THE RISING NUMBER OF TRAFFIC ACCIDENTS BROUGHT ON BY DRIVERS FAILING TO UTILISE THEIR TURN SIGNALS. WITH
10. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	INTELLIGENT NAVIGATION ASSISTED INDICATOR
11. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ENGLISH
12. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
13. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
14. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
15. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
16. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
17. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	UNPUBLISHED
18. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	N.A.
19. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	N.A.
20. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
21. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
22. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
23. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
24. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
25. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	MR. PRITAM RAMESH AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
26. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
27. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	DR. SAGAR JOSHI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
28. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ADITYA YOGESH CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN
29. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	SHRIKRUSHNA ASHOK DEORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421604 INDIAN

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA REGISTRATION & PROTECTION		 Extracts from the Register of Copyrights		
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India दिनांक/Dated:-12/09/2023				
1.	पंजीकरण संख्या/Registration Number	E-132940/2023		
2.	अर्पक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN RIYA SHEDGE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SRUSHTI WAGHMARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KUNIKA SIRPOR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN HARSHWARDHAN YADAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAMEER SHAIKH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN		
3.	वृत्ति के प्रतिलिप्यधिकार में अन्वेषण के विषय की वृत्ति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4.	वृत्ति का वर्ग और वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK ACCIDENTS DUE TO DOOR CRASHES ARE PREDOMINANTLY RULING TODAY'S ERA. IN PARTICULAR, SUDDEN OPENING OF THE VEHICLE DOORS CAUSES CLASHES WITH THE APPROACHING VEHICLES. VEHICLE DOOR OPENING VIGILANT SYSTEM		
5.	वृत्ति का शीर्षक Title of the work	ENGLISH		
6.	वृत्ति की भाषा Language of the work	ENGLISH		
7.	रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN RIYA SHEDGE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SRUSHTI WAGHMARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KUNIKA SIRPOR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN HARSHWARDHAN YADAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAMEER SHAIKH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN		
8.	वृत्ति प्रकाशित या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9.	प्रकाशक का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10.	वर्ष के प्रकाशकों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		
11.	वृत्ति में प्रतिलिप्यधिकार वाले विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रियताओं और अनुबंधों के विवरण के साथ उनके अधिकार का विस्तार, यदि कोई हो। Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any	PROF. HARSHAL CHAUDHARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN RIYA SHEDGE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SRUSHTI WAGHMARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN KUNIKA SIRPOR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN HARSHWARDHAN YADAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAMEER SHAIKH, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-410507 INDIAN		




**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
TRADE MARKS
PATENTS
DESIGNS



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government of India

दिनांक Dated: 23-06-2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number The number of the work registered in the Copyright Office, Government of India. 2. लेखक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant The name, address and nationality of the applicant. 3. वर्क के कॉपीराइट में अंतर का विवरण/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work The nature of the applicant's interest in the copyright of the work. 4. वर्क का वर्णन/Class and description of the work The class and description of the work. 5. वर्क का शीर्षक/Title of the work The title of the work. 6. वर्क की भाषा/Language of the work The language of the work. 7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक की मृत्यु हो गई हो, तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease The name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease. 8. वर्क प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished Whether the work is published or unpublished. 9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher The year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher. 10. वर्क के प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers The years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers. 11. वर्क में हस्तक्षेप करने वाले विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पता और राष्ट्रियता और आशुपत्रों और लाइसेंसों के विवरण के साथ उनके द्वारा प्रकाशित की गई, प्रकाशित की गई या प्रकाशित की गई/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any The names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any. 12. अन्य व्यक्ति को नाम, पता और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, को कॉपीराइट प्रदान करने के लिए अधिकार देने के लिए अधिकृत है/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright The names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright.	L-122076/2023 MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN HITEN BHANUSHALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KHUSHI BIRADAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SANJAL MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OWNER LITERARY / DRAMATIC WORK VOCAL IS A VOICE CALCULATOR MADE USING PYTHON. IT CONSISTS THE USE OF BASICS OF PYTHON LANGUAGE SUCH AS CONDITIONAL STATEMENTS, LOOPS, FUNCTION DEFINITION AND CALLING. IT SATISFIES THE BASIC REQUIRE VOICE CALCULATOR(VOCAL) USING PYTHON ENGLISH MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN HITEN BHANUSHALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KHUSHI BIRADAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SANJAL MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN HITEN BHANUSHALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KHUSHI BIRADAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SANJAL MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN HITEN BHANUSHALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KHUSHI BIRADAR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SANJAL MALI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN
--	--

Register of Copyrights


75

[illegible]

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारत सरकार, बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय		 Copyright Office, Government Of India बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय, भारत सरकार	
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India		Extracts from the Register of Copyrights	
फॉर्म नं. सीपीआर/१/२०२३ Form No. CPYR/1/2023		L-122205/2023	
1. आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN		2. आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN	
3. आवेदन के विषय में आवेदक की हिस्से की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work OWNER		4. वर्णन और वर्णन Class and description of the work LITERARY / DRAMATIC WORK AS WE KNOW, INDIA IS ONE OF THE FASTEST DEVELOPING COUNTRY IN THE WORLD. IN EVERY SECTOR LIKE IT, ECONOMIC, MANUFACTURING, IMPORT AND EXPORT, AND TRANSPORT WE ARE DEVELOPING RAPIDLY AS THERE IS A LOT	
5. आवेदन का शीर्षक Title of the work COP-CAM FOR E CHALLAN		6. आवेदन की भाषा Language of the work ENGLISH	
7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN		8. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN	
9. प्रकाशक का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher N.A.		10. बाद से प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई हैं और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers N.A.	
11. आवेदन के कॉपीराइट वाले विभिन्न अधिकारों से सम्बंधित वे लोग, पते और राष्ट्रियताओं और आधिकारिक और लक्ष्य के निवास के साथ उनके नाम, पते और राष्ट्रियता Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN		12. उन व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, जिन्हें यह कॉपीराइट के अंतर्गत वे लोग या लक्ष्य देने से लिए अनुमति दी Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or license of rights comprising the copyright MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 भारतीय INDIAN	



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**
TRADE MARKS, PATENTS &
DESIGN REGISTRATIONS



सत्यमेव जयते

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक/Date: 24/05/2023

फॉर्म No. CP-1 (अप्रैल 2012)

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता/Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक के कॉपीराइट में अनेकता की स्थिति की प्रकृति/Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कार्य का वर्णन और विवरण/Class and description of the work

5. कार्य का शीर्षक/Title of the work

6. कार्य की भाषा/Language of the work

7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक की मृत्यु हो गई हो, तो मृत्यु की तिथि/Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित/Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता/Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. बाद से प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता/Years and countries of subsequent publications, if any, and name, address and nationalities of the publishers

11. कार्य में कॉपीराइट राशि विभिन्न अधिकारों के अधिकारों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और आशयवाचक और आवधिकता के विवरणों के साथ प्रत्येक के अधिकार की शर्तों, यदि कोई हो।/Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. अपा अधिकारों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हों, जो कॉपीराइट वाले व्यक्तिगत कार्य या सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अधिकृत हों।/Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

13. यदि कार्य एक 'आर्चिटेक्चरल वर्क' है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता सहित कार्य करने का समय।/If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).

L-122246/2023

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

GAURAV JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

SWAPNIL BHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

ADITYA BOLE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

OWNER

LITERARY / DRAMATIC WORK IN TODAY'S MODERN WORLD, EVERYONE HAS TO BE UPDATED THEY TAKE HELP OF ARTICLE, PDF FILE, WIKIPEDIA AND MANY MORE HOWEVER, IN TODAY'S COMPETITIVE WORLD, MOST OF THE PEOPLE DO NOT HAVE ENOUGH TIME TO RE

CONVERTING TEXT FILE/PDF/ARTICLE INTO AUDIO (AUDIOBOOK)

ENGLISH

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

GAURAV JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

SWAPNIL BHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

ADITYA BOLE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

GAURAV JADHAV, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

SWAPNIL BHAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507

INDIAN

ADITYA BOLE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507


INDIAN

N.A.


N.A.

 		Extracts from the Register of Copyrights	
Copyright Office, Government Of India		Copyright Office, Government Of India	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant 3. आवेदक का हित Nature of the applicant's interest in the copyright of the work 4. कार्य का वर्णन और विवरण Class and description of the work 5. कार्य का शीर्षक Title of the work 6. कार्य की भाषा Language of the work 7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता यदि लेखक की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease 8. कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished 9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher 10. वर्षों के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers 11. कार्य में कॉपीराइट वाले विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पते और राष्ट्रियता और आवंटन और लाइसेंस के विवरण के साथ प्रत्येक अधिकार की शीर्षक, यदि कोई हो Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any 12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो कॉपीराइट वाले अधिकारों को सौंपने या लाइसेंस देने के लिए अधिकृत हैं Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright 13. यदि कार्य एक 'साहित्यिक कार्य' है, तो कार्य की मूल स्थिति, जिसमें कार्य का नाम, पता और राष्ट्रियता शामिल हों, और यदि कार्य एक 'साहित्यिक कार्य' है, तो कार्य की मूल स्थिति, जिसमें कार्य का नाम, पता और राष्ट्रियता शामिल हों, और यदि कार्य एक 'साहित्यिक कार्य' है, तो कार्य की मूल स्थिति, जिसमें कार्य का नाम, पता और राष्ट्रियता शामिल हों If the work is an 'Artistic work', the location of the original work including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown)		I-122260/2023 MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KRUSHNAL PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHIT PARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAURABH AUTADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN OWNER LITERARY/ DRAMATIC WORK WE ARE ALL LIVING IN 21ST CENTURY, WE ARE ALL LIVING IN THE WORLD OF EMERGING TECHNOLOGIES, WE ARE APPROACHING TO THE FUTURE LIFESTYLE OF UNIFIED TECHNOLOGIES, TO THE SUSTAINABLE SYSTEMS, TO THE S UNIFIED, COMPREHENSIVE, DECENTRALIZED AND UNIVERSALIZED ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND MANAGEMENT SYSTEM. ENGLISH MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KRUSHNAL PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHIT PARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAURABH AUTADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN UNPUBLISHED N.A. N.A. MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KRUSHNAL PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHIT PARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAURABH AUTADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN KRUSHNAL PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN ROHIT PARE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN SAURABH AUTADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-410507 INDIAN N.A.	

  Extracts from the Register of Copyrights 	
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India बैरोन सैदी एडवर्ट, ज़रत महरव, ०५९७१ ६२६३२ ७११३३ ७३३३३० १९३३३३, बैरोन सैदी एडवर्ट, ज़रत महरव, ०५९७१ ६२६३२ ७११३३ ७३३३३० १९३३३३	
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-123001/2023
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR.PRITAM R AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR.SAURABH U SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
3. कार्य के कॉपीराइट में आवेदक की रूचि की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER
4. कार्य का वर्णन और विवरण Class and description of the work	LITERARY/ DRAMATIC WORK REINFORCEMENT LEARNING HAS GONE MAINSTREAM AMONG ENTERPRISES, AND IT IS NOW FEASIBLE, SEVERAL FIRMS ARE ADOPTING IOT AS A KEY FIELD, WHILE OTHERS HAVE ELIMINATED TEST PROGRAMMES TO MAP THE POWER OF IO IOT ENABLED SMART HEALTHCARE MONITORING SYSTEM FOR SOLDIERS USING PREDICTIVE & DESCRIPTIVE MODELS
5. कार्य का शीर्षक Title of the work	ENGLISH
6. कार्य की भाषा Language of the work	ENGLISH
7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता यदि लेखक की मृत्यु हो गई है तो : Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR.PRITAM R AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR.SAURABH U SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
8. क्या कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.
10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.
11. कार्य के कॉपीराइट वाले विभिन्न अधिकारों के धारकों के नाम, पता और राष्ट्रियता और आवेदन और आवेदन के निराकरण के लिए अधिकार के धारकों के नाम, पता और राष्ट्रियता Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any	ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR.PRITAM R AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR.SAURABH U SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
12. अन्य व्यक्तियों के नाम, पता और राष्ट्रियता, यदि कोई हो, जो कॉपीराइट वाले : अधिकारों को सौंपने या लाइसेंस देने के लिए अधिकृत हैं, यदि : Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN MR.PRITAM R AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN DR.SAURABH U SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN
13. यदि कार्य एक 'कलात्मक कार्य' है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता यदि मूल कार्य का स्थान (एक कलात्मक कार्य के मामले में) : Name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.




**INTELLECTUAL
PROPERTY
INDIA**
REGISTRY OF TRADE MARKS
DESIGN PATENTS AND COPYRIGHTS



सत्यमेव जयते

**Extracts from the
Register of
Copyrights**



कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government of India

दिनांक: 02/06/2023

1. पंजीकरण संख्या/Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता
Name, address and nationality of the applicant

3. कार्य के कॉपीराइट में आवेदक की हित की प्रकृति
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. कार्य का वर्ण और विवरण
Class and description of the work

5. रचयिता का शीर्षक
Title of the work

6. कार्य की भाषा
Language of the work

7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. कार्य प्रकाशित है या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished

9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

10. बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers

11. कार्य में कॉपीराइट शामिल विभिन्न अधिकारों के मालिकों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और आवेदक और रचयिता दोनों के लिए अधिकार हों
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. अन्य व्यक्तिों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हों, जो कॉपीराइट वाले अधिकारों को अपने या लाइसेंस वाले को प्रदान करने के लिए अधिकार हों
Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright

13. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रियता शामिल मूल कार्य का स्थान। एक वास्तुशिल्प कार्य के मामले में, कार्य पूरा होने का वर्ष भी दिखाया जाना चाहिए।
If the work is an "Artistic work", the location of the original work including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).

L-123004/2023

PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

DR.SAURABH U.SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

OWNER

LITERARY/ DRAMATIC WORK TO FIND THE CRIMINALS IN TODAY'S WORLD IS STILL A DIFFICULT TASK, SO TO SOLVE AND OVERCOME THIS PROBLEM THE GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS WILL HELP IN INVESTIGATION. A GENERATIVE MODEL, IN TERMS OF CRIMINAL INVESTIGATION BY SKETCH-IMAGE RECOGNITION USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS(GANS)

ENGLISH

PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

DR.SAURABH U.SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

DR.SAURABH U.SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN


ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

PROF.DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

DR.SAURABH U.SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

MR.PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN

ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 INDIAN



Registrar of Copyrights

[illegible]

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA भारतीय औद्योगिक संपत्ति अधिकार विभाग भारतीय औद्योगिक संपत्ति अधिकार विभाग		 Extracts from the Register of Copyrights		
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government Of India				
तिथि/Dated: 06/07/2023				
1. पंजीकरण संख्या/Registration Number	L-128394/2023			
2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 भारतीय INDIAN			
3. कार्य के कॉपीराइट में आवेदक की हानि की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER			
4. कार्य का वर्णन और श्रेणी Class and description of the work	LITERARY/ DRAMATIC WORK WEARING A FACE MASK IS ONE OF THE MAIN PREVENTIVE MEASURES AMONG THEM. WEARING A MASK TOO FREQUENTLY CAN REDUCE THE RISK OF COVID19 TRANSMISSION.			
5. कार्य का शीर्षक Title of the work	VIDEO BASED FACE MASK DETECTION AND FACE RECOGNITION USING CNN,YOLO & GOOGLEFACENET			
6. कार्य की भाषा Language of the work	ENGLISH			
7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि लेखक की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	ROHINI SHEETALKUMAR HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY-421004 भारतीय INDIAN			
8. प्रकाशक का नाम और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	UNPUBLISHED			
9. वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	INDIAN			
10. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			
11. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			
12. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			
13. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			
14. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			
15. यदि कार्य एक कलात्मक कार्य है तो कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता If the work is an 'Artistic work', the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).	N.A.			



INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
भारत सरकार, नवा विधान



Extracts from the Register of Copyrights



फॉर्म नं. 1
भारत सरकार, नवा विधान

कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक Dated: 06/06/2023

L-123904/2023

DR. SHEKHAR RAHANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

HRSHIKESH TIWARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

SUDIP UMBARDAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

PRATIKSHA TOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

INDIAN

OWNER

1. पंजीकरण संख्या Registration Number

2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant

3. आवेदक का वर्गीकरण के अनुसार वर्ग का वर्णन Nature of the applicant's interest in the copyright of the work

4. आवेदक का वर्ग और विवरण Class and description of the work

5. आवेदक का शीर्षक Title of the work

6. आवेदक की भाषा Language of the work

7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि लेखक की मृत्यु हो गई हो, तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease

8. प्रकाशक का नाम, पता और देश प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher

9. वर्षों के कॉपीराइट के अधिकारों के विवरण Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

10. वर्षों के कॉपीराइट के अधिकारों के विवरण Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

11. वर्षों के कॉपीराइट के अधिकारों के विवरण Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

12. वर्षों के कॉपीराइट के अधिकारों के विवरण Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any

UNPUBLISHED

DR. SHEKHAR RAHANE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507



MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

HRSHIKESH TIWARI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

SUDIP UMBARDAND, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507

PRATIKSHA TOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507




INDIAN

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION		 Extracts from the Register of Copyrights		
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India दिनांक / Date: 06/06/2023				
1.	पंजीकरण संख्या / Registration Number	E-123901/2023		
2.	आपका नाम, पता तथा राष्ट्रियता <i>Name, address and nationality of the applicant</i>	MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN MRS. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN GUNJAN MAHAJAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VINIT VARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN OWNER		
3.	वर्क के कॉपीराइट में आपके हित की प्रकृति <i>Nature of the applicant's interest in the copyright of the work</i>	LITERARY / DRAMATIC WORK WE DO NOT HAVE A PROPER RECORD OF WHERE WE SPEND OUR MONEY AS IT HAS NOW BECOME EASIER TO PAY VIA ONLINE MODE. NOWADAYS WE HAVE BECOME HABITUALLY TO USE THESE PLATFORMS LIKE PHONEPAY, PAYTM, GOOGLEPAY ETC		
4.	वर्क का वर्ण और विवरण <i>Class and description of the work</i>	EXPENSE ANALYZER		
5.	वर्क का शीर्षक <i>Title of the work</i>	ENGLISH		
6.	वर्क की भाषा <i>Language of the work</i>	MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN MRS. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN GUNJAN MAHAJAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VINIT VARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN UNPUBLISHED		
7.	लेखक का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि लेखक को मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि <i>Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease</i>	N.A.		
8.	वर्क प्रकाशित है या अप्रकाशित <i>Whether the work is published or unpublished</i>	N.A.		
9.	प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता <i>Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher</i>	N.A.		
10.	वर्क के उपरान्त होने वाले वेंच और वेत, यदि कोई हो और प्रकाशकों के नाम पते और राष्ट्रियताएं <i>Years and countries of subsequent publications, if any, and names addresses and nationalities of the publishers</i>	N.A.		
11.	वर्क में कॉपीराइट दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम पते और राष्ट्रियताएं और आवंटन और लाइसेंसों के विवरण के साथ उनके अधिकार की सीमा, यदि कोई हो <i>Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any</i>	MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN MRS. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN GUNJAN MAHAJAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VINIT VARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN		
12.	अन्य व्यक्तियों के नाम पते और राष्ट्रियताएं, यदि कोई हो जो कॉपीराइट वाले कार्य आवंटनों के संपन्न या लाइसेंस देने से रोक रखे जा रहे हैं। <i>Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright</i>	MR. PRITAM AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN MRS. KIRTI TAKALE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VAIBHAV ZOPE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN GUNJAN MAHAJAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN VINIT VARADE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN		

[illegible]

37

 INTELLECTUAL PROPERTY INDIA REGISTRY OF PATENTS, TRADE MARKS, DESIGNS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS		 Extracts from the Register of Copyrights		
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India				
Registration Number L-123052/2023				
1. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता Name, address and nationality of the applicant		PROF. JYOTI S. GORE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
2. आवेदन का विषय Subject of the application		MR. PRITAM R. AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
3. आवेदन का वर्णन Description of the work		SAAKSHI KOBARNE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
4. आवेदन की तिथि Date of the application		SHRUTI KULKARNI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
5. आवेदन की भाषा Language of the work		NIDHI BADVE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
6. आवेदन की प्रकृति Nature of the work		YASH JAKKAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
7. आवेदन की श्रेणी Category of the work		ABHISHEK KASTUR, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
8. आवेदन की तिथि Date of the application		RUTIKA CHAVAN, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416097 INDIAN		
9. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
10. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
11. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
12. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
13. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
14. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
15. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
16. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
17. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
18. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
19. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		
20. आवेदन की तिथि Date of the application		UNPUBLISHED		

 		Extracts from the Register of Copyrights	
कॉपीराइट कार्यालय, भारत सरकार Copyright Office, Government of India		दिनांक Dated: 02-06-2023	
1. रजिस्ट्रेशन नंबर Registration Number 2. आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता Name, address and nationality of the applicant	L-123042/2023 MR. PRITAM R. AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN DR. SAURABH U. SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN		
3. आवेदक की कोपीराइट में श्रेष्ठता की रचना की प्रकृति Nature of the applicant's interest in the copyright of the work	OWNER		
4. रचना का वर्णन Class and description of the work	LITERARY / DRAMATIC WORK INDIAN BASED AGRICULTURE GATHERING INFORMATION RELATED TO AGRO LIKE FERTILITY OR SOIL CONDITIONS, WEATHER CONDITIONS, GROWTH OF CROPS, TEMPERATURE, HUMIDITY, RAINFALL, PLANTATIONS OF SEEDS.		
5. रचना का शीर्षक Title of the work	SMART AGRICULTURE SYSTEM BASED ON GBM AND RF PREDICTIVE ANALYSIS USING FEDERATED LEARNING APPROACH		
6. रचना की भाषा Language of the work	ENGLISH		
7. लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता तथा यदि लेखक की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease	MR. PRITAM R. AHIRE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. ROHINI HANCHATE, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN DR. SAURABH U. SAOJI, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN PROF. DHANASHRI PATIL, NUTAN MAHARASHTRA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY-416507 INDIAN		
8. रचना प्रकाशित है या अप्रकाशित Whether the work is published or unpublished	UNPUBLISHED		
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher	N.A.		
10. प्रथम प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई हो, और प्रकाशक के नाम, पता और राष्ट्रीयता Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers	N.A.		
11. रचना में कोपीराइट वाले विभिन्न अधिकारों के मालिकों के नाम, पता और राष्ट्रीयता और अप्रकाशित और अप्रकाशित के विभाग के नाम लेखक के अधिकार की सीमा, यदि कोई हो Name, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licenses, if any	N.A.		
12. प्रथम व्यक्ति के नाम, पता और राष्ट्रीयता, यदि कोई हो, जो कोपीराइट वाले अधिकारों को सौंपने या सौंपने के लिए अधिकृत हैं Name, addresses and nationalities of other persons, if any, authorized to assign or licence of rights comprising the copyright	N.A.		

[illegible]

91

92

[illegible]